



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 4—फरवरी 10, 2012 (माघ 15, 1933)
No. 5] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 4—FEBRUARY 10, 2012 (MAGHA 15, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली-23, दिनांक 12 जनवरी 2012

सं. 2/38/10-प्रशासन/161719--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा
आयोग में अवर सचिव श्री फिलीप बारा को विशेष कार्य अधिकारी के पद
पर वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- में ग्रेड वेतन 7,600/- के साथ
तदर्थ आधार पर दिनांक 09 जनवरी, 2012 से बारह माह की अवधि अथवा
अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

2. विशेष कार्य अधिकारी के पद पर इनकी नियुक्ति केन्द्रीय सतर्कता
आयोग (स्टाफ) भर्ती नियमावली, 2007 के नियम 4(1) (ख) के अन्तर्गत
पूर्णतया तदर्थ आधार पर है तथा इससे नियमित नियुक्ति के लिए उन्हें कोई
अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

सुरजीत सिंह
निदेशक (प्रशासन)
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

सं. 2/38/10-प्रशासन/161721--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा
आयोग में अवर सचिव श्री आर. एन. नायक को विशेष कार्य अधिकारी के
पद पर वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- में ग्रेड वेतन 7,600/- के साथ
तदर्थ आधार पर दिनांक 09 जनवरी, 2012 से बारह माह की अवधि अथवा
अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

2. विशेष कार्य अधिकारी के पद पर इनकी नियुक्ति केन्द्रीय सतर्कता
आयोग (स्टाफ) भर्ती नियमावली, 2007 के नियम 4(1) (ख) के अन्तर्गत
पूर्णतया तदर्थ आधार पर है तथा इससे नियमित नियुक्ति के लिए उन्हें कोई
अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

सुरजीत सिंह
निदेशक (प्रशासन)
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

गृह मंत्रालय
महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
नई दिल्ली-110003, दिनांक 11 जनवरी 2012

सं. ओ. दो. 3871/11-कार्मिक (चिकित्सा)--डॉक्टर प्रमोद कुमार,
उन महानिरीक्षक (चिकित्सा) (इरला-8637) संयुक्त अस्पताल,

के.रि.पु. बल, इम्फाल (मणिपुर) ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्त होने पर दिनांक 01/11/2011 (पूर्वाह्न) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 01/11/2011 पूर्वाह्न से निकाला गया है।

आर एन मिश्रा
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

समन्वय निदेशालय
(पुलिस बेतार)

नई दिल्ली-3, दिनांक 21 दिसम्बर 2011

सं. ए-17011/06/डी-52/2011-प्रशा.1--इस निदेशालय के श्री धर्मपाल वशिष्ठ, अतिरिक्त सहायक निदेशक (बीजलेख) अपनी अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर दिनांक 30-11-2011 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गये हैं।

पी. के. सिंहल
निदेशक

सं. ए-17011/07/पी-57/2011-प्रशा.1--इस निदेशालय के श्री पंकज श्रीवास्तव, अतिरिक्त सहायक निदेशक (बीजलेख) अपनी अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर दिनांक 30-11-2011 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गये हैं।

पी. के. सिंहल
निदेशक

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
प्रमुख महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा) का कार्यालय, ओडिशा

भुवनेश्वर, दिनांक 17 जनवरी 2012

सं. प्रशा. (लेप-1)-17-2(व.लेपअ) भाग-IV/2342--ज्ञापन सं. प्रशा.1(लेप)/17-2(व.लेपअ)/भाग-IV/2153, दिनांक 30.12.2011, द्वारा सूचित का.आ.ग. 990, दिनांक 30.12.2011 के अनुपालन में निम्नलिखित लेखापरीक्षा अधिकारियों ने पदोन्नति होने पर उनके नाम के आगे दर्शाए गए तिथि से वेतन बैंड-3 (रु. 15,600--39,100/-) एवं सादृश्य ग्रेड वेतन रु. 5,400/- पर वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है:--

क्र. सं.	नाम	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार लेने की तिथि
1	2	3
	सर्वश्री	
1.	बिजय कुमार दाश	02.01.2012 (पूर्वाह्न)
2.	प्रमोद कुमार नायक-II	02.01.2012 (पूर्वाह्न)
3.	दामोदर मिश्रा	02.01.2012 (पूर्वाह्न)

1	2	3
4.	प्रभात कुमार साहु	02.01.2012 (पूर्वाह्न)
5.	आर. वी. रमना	02.01.2012 (पूर्वाह्न)
6.	ब्रुदावन साहु-II	02.01.2012 (पूर्वाह्न)
7.	चौ. सचींद्र कुमार दास	02.01.2012 (पूर्वाह्न)
8.	लालातेंदु सामंतराय	02.01.2012 (पूर्वाह्न)
9.	अशोक कुमार महंति	02.01.2012 (पूर्वाह्न)
10.	भीमसेन बेहेरा	02.01.2012 (पूर्वाह्न)
11.	मनींद्र नाथ बवाली	02.01.2012 (पूर्वाह्न)
12.	बिमल चन्द्र दास महापात्र	02.01.2012 (पूर्वाह्न)
13.	तपन कुमार होड़	02.01.2012 (पूर्वाह्न)

र. कृ. दास
व. लेखापरीक्षा अधिकारी/(प्रशासन)

महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हकदारी), आंध्र प्रदेश

हैदराबाद-500 004, दिनांक 19 जनवरी 2012

सं. प्रशा.-1/ले. एवं ह./आई/4-39/2011-2012/27078--महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हैदराबाद में निम्नलिखित लेखा अधिकारी को वरिष्ठ लेखा अधिकारी के रूप में स्थानापन्न के लिए रु. 15,600--39,100/-के वेतन बैंड में रु. 5,400/- के ग्रेड वेतन के साथ उनके नाम के सम्मुख बतायी गई प्रभावी तिथि से सहर्ष पदोन्नत किया है:--

क्र. सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	एम श्रीहरी	02.01.2012 (पूर्वाह्न)
2.	वै शान्ता	02.01.2012 (पूर्वाह्न)
3.	एम शान्ती	02.01.2012 (पूर्वाह्न)
4.	एस बी निर्मला	02.01.2012 (पूर्वाह्न)
5.	एस सुधाकर	02.01.2012 (पूर्वाह्न)
6.	एम शान्ती कुमारी	02.01.2012 (पूर्वाह्न)
7.	के माधवी	02.01.2012 (पूर्वाह्न)
8.	बी वी सुदर्शन राव	02.01.2012 (पूर्वाह्न)
9.	सी हेच सैरय्या	02.01.2012 (पूर्वाह्न)
10.	वी उमा देवी	02.01.2012 (पूर्वाह्न)

यह पदोन्नतियों के आदेश उनके वरिष्ठों के दावों, यदि कोई हो तो, पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले तथा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्युनल में लंबित रिट याचिकाओं के परिणाम के अधीन जारी किए जाते हैं।

वै. उदय भास्कर
उप महालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा) का कार्यालय, आंध्र प्रदेश

हैदराबाद-500 004, दिनांक 13 जनवरी 2012

सं. प्रशा.-I/पदो./8-132/2011-2012/82--महालेखाकार, आंध्रप्रदेश, हैदराबाद ने इस कार्यालय के निम्नलिखित लेखापरीक्षा अधिकारियों (सिविल) को रु. 5,400/- के ग्रेड पे के साथ रु. 9,300--34,800/- के पे बैंड-2 में वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (सिविल) के संवर्ग में उनके नामों के सामने दी गई तिथि के प्रभाव से प्रोन्नत किया है:--

क्र. सं.	नाम	कार्यालय आदेश सं. एवं तिथि	कार्यभार ग्रहण की तिथि
(श्री/श्रीमती/कु.)			
1.	टी. शिवा प्रसाद	129/29.12.2011	02.01.2012
2.	जे. श्रीनिवासन	129/29.12.2011	02.01.2012
3.	जे.वी.एस. गंगाधर शास्त्री	129/29.12.2011	02.01.2012
4.	वी. एन. सुधाकर रॉव	129/29.12.2011	02.01.2012
5.	टी. अरुणा	129/29.12.2011	02.01.2012
6.	एन. वी. वी. साईनाथ शर्मा	129/29.12.2011	02.01.2012
7.	बिनोद बिहारी बेहरा	129/29.12.2011	02.01.2012
8.	एन. जयपाल रेड्डी	129/29.12.2011	02.01.2012
9.	पी. जगदीश्वरी	129/29.12.2011	02.01.2012

उपरोक्त प्रोन्नति आदेश उनके वरिष्ठों के दावों, यदि कोई हो, के प्रति पक्षपात से रहित है तथा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय/भारत के सर्वोच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण इत्यादि में लंबित रिट याचिकाओं, यदि कोई हो, के परिणाम के अधीन है।

दिनांक 13.09.2008 का. ज्ञा. सं. एफ. एन.1/1/2008-आई.सी. भारत सरकार की शर्तों के अनुसार अधिकारियों को अपने पदोन्नति की तिथि से एक महीने के अंदर वेतन निर्धारण के विकल्प का चयन करना चाहिए।

अनीता बालाकृष्ण
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

वस्त्र मंत्रालय

(वस्त्र आयुक्त का कार्यालय)

मुंबई-400 020, दिनांक 1 नवम्बर 2010

विषय : भारत के राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचित दिनांक 9.4.2009 के ए946 (E) तथा डी.ओ.पी.टी. के दिनांक 17.4.2009 के का.ज्ञा.सं. 11012/7/2008-Estt. (A) के अनुसार पदों का वर्गीकरण।

सं. 3/24/2010/स्था-एक/01--भारत के राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचित दिनांक 9/4/2009 के एस.ओ. 946 (E) के आधार पर दिनांक 17.4.2009 के का.ज्ञा.सं. 11012/7/2008-Estt. (A) के अनुदेशों के अनुपालन में सक्षम प्राधिकारी ने इस संगठन के निम्नलिखित पदों के वर्गीकरण हेतु अनुमोदन दिया है। तदनुसार, उनके पे बैंड एवं ग्रेड पे के आधार पर नीचे कॉलम (4) में उल्लेखानुसार इन पदों को वर्गीकृत किया गया है:--

क्र. सं.	पद का नाम	परिशोधनपूर्ण वेतनमान एवं विद्यमान वर्गीकरण	परिशोधित वेतनमान अर्थात् पे-बैंड एवं ग्रेड पे तथा उसका वर्गीकरण
1	2	3	4
1.	सहायक	रु. 5,000-150-8,000/- समूह-ग	पी.बी.-2 /- रु. 9,300-34,800/- + ग्रेड पे रु. 4,200/- समूह-ख (अराजपत्रित)
2.	प्रोटेक्टो सहायक	रु. 5,000-150-8,000/- समूह-ग	पी.बी.-2 /- रु. 9,300-34,800/- + ग्रेड पे रु. 4,200/- समूह-ख (अराजपत्रित)
3.	आशुलिपिक श्रेणी-II	रु. 5,000-150-8,000/- समूह-ग	पी.बी.-2 /- रु. 9,300-34,800/- + ग्रेड पे रु. 4,200/- समूह-ख (अराजपत्रित)
4.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	रु. 5,000-150-8,000/- समूह-ग	पी.बी.-2 /- रु. 9,300-34,800/- + ग्रेड पे रु. 4,200/- समूह-ख (अराजपत्रित)
5.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	रु. 5,000-150-8,000/- समूह-ग	पी.बी.-2 /- रु. 9,300-34,800/- + ग्रेड पे रु. 4,200/- समूह-ख (अराजपत्रित)
6.	निपुण बुनकर	रु. 5,000-150-8,000/- समूह-ग	पी.बी.-2 /- रु. 9,300-34,800/- + ग्रेड पे रु. 4,200/- समूह-ख (अराजपत्रित)
7.	कारपेन्टर	रु. 2,650-65-3,300-70-4,000/- समूह-घ	पी.बी.-1 रु. 5,200-20,200/- + ग्रेड पे रु. 1,800/- समूह-ग
8.	दफ्तरी	रु. 2,610-60-2,910-65-3,300-70-4,000/- समूह-घ	पी.बी.-1 रु. 5,200-20,200/- + ग्रेड पे रु. 1,800/- समूह-ग

1	2	3	4
9.	चपरासी	रु. 2,550-55-2,660-60-3,200/- समूह-घ	पी.बी.-1 रु. 5,200-20,200/- + ग्रेड पे रु. 1,800/- समूह-ग
10.	चौकीदार	रु. 2,550-55-2,660-60-3,200/- समूह-घ	पी.बी.-1 रु. 5,200-20,200/- + ग्रेड पे रु. 1,800/- समूह-ग
11.	हमाल	रु. 2,550-55-2,660-60-3,200/- समूह-घ	पी.बी.-1 रु. 5,200-20,200/- + ग्रेड पे रु. 1,800/- समूह-ग
12.	फिटर-कम-कारपेन्टर	रु. 2,550-55-2,660-60-3,200/- समूह-घ	पी.बी.-1 रु. 5,200-20,200/- + ग्रेड पे रु. 1,800/- समूह-ग
13.	बुनकर सहायक	रु. 2,550-55-2,660-60-3,200/- समूह-घ	पी.बी.-1 रु. 5,200-20,200/- + ग्रेड पे रु. 1,800/- समूह-ग
14.	स्वीपर	रु. 2,550-55-2,660-60-3,200/- समूह-घ	पी.बी.-1 रु. 5,200-20,200/- + ग्रेड पे रु. 1,800/- समूह-ग

एस. बालाराजू
संयुक्त वस्त्र आयुक्त (का)

खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 11 जनवरी 2012

सं. ए. 19011/627/2011-स्था.ए.--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर श्री प्रभात मिश्रा, को भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में दिनांक 27.12.2011 (पूर्वाह्न) से उप खनिज अर्थशास्त्री (आ.) के पद पर नियुक्ति की जाती है।

एस. दासगुप्ता
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानियंत्रक

सं. ए. 19011/628/2011-स्था.ए.--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर श्री अरूण कुमार रॉय, को भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में दिनांक 27.12.2011 (पूर्वाह्न) से उप खनिज अर्थशास्त्री (आ.) के पद पर नियुक्ति की जाती है।

एस. दासगुप्ता
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानियंत्रक

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र

मुंबई-400 085, दिनांक 18 जनवरी 2012

संदर्भ: पीडी/7(14)/2010/भर्ती-IV/एसओ/सी/558--राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के श्री मारुती काशिराम कांबले, वैज्ञानिक

अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड एसबी पे बैंड रु. 9,300-34,800 + ग्रेड पे रु. 4,800/- को वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड सी पर पे बैंड रु. 15,600-39,100 + ग्रेड पे रु. 5,400/- के वेतनमान में, 1 जुलाई, 2011 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक, स्थानापन्न रूप में इसी अनुसंधान केंद्र में कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं।

शैलजा प्रकासम
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग
परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र

कोलकाता-700 064, दिनांक 13 जनवरी 2012

सं. वीईसीसी/पदोन्नति (जुलाई)/2011/123--राष्ट्रपति, प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के निम्नलिखित वैज्ञानिक सहायक को इसी केन्द्र पर वेतन बैंड 15,600--39,100 (पीबी 3) + ग्रेड वेतन रु. 5,400/- के वेतनमान में तकनीकी अधिकारी (सी) के पद पर काम करने के लिए जुलाई 1, 2011 के पूर्वाह्न से अगले आदेश निकलने तक नियुक्ति प्रदान करते हैं।

क्र. सं.	नाम	वर्तमान पद	वेतन बैंड + ग्रेड वेतन
1.	श्री सुमन कुमार गुहा	वैज्ञानिक सहायक/ई	रु. 15,600 + 39,100/- (पीबी-3) + रु. 5,400/-

एन वी एस वी प्रसाद
प्रशासनिक अधिकारी-III

कोलकाता-700 064, दिनांक 18 जनवरी 2012

सं. वीईसीसी/नियुक्ति/टीएसओ/2011/173--राष्ट्रपति, प्रसन्नतापूर्वक निम्नलिखित प्रशिक्षुओं को परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता में वैज्ञानिक अधिकारी/सी के पद पर रु. 15,600--39,100/- (पीबी-3) के वेतन बैंड + रु. 5,400/- के ग्रेड पे में 1 सितंबर, 2011 के पूर्वाह्न से अगले आदेश निकलने तक अस्थायी रूप में नियुक्ति प्रदान करते हैं:--

क्र. सं.	नाम
	श्री/कुमारी
1.	शांतनु साहू
2.	संदीप घोष
3.	अरिंदम कुमार सिकंदर
4.	विकास जैन

देबजीत गुप्ता
सहायक कार्मिक अधिकारी

निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय

मुंबई-400 094, दिनांक 16 जनवरी 2012

सं. निसेसंप्रनि/प्र/3(2226)/2011-भर्ती/70--निदेशक, निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, एतद्वारा श्री जी. श्रीनिवासन, सहायक सुरक्षा अधिकारी (बी), भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई को निदेशालय में दिनांक 26.12.2011 की पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक वेतन बैंड-2 रु. 9,300-34,800 और ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

जी. एस. करवाडे
प्रशासन अधिकारी-III

सं. निसेसंप्रनि/प्र/3/(2227)/2011-भर्ती/72--निदेशक, निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्वारा श्री ई. एम. कंदासामी, सहायक सुरक्षा अधिकारी (बी), भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई को निदेशालय में दिनांक 26.12.2011 की पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक वेतन बैंड-2 रु. 9,300-34,800/- और ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

जी. एस. करवाडे
प्रशासन अधिकारी-III

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

हैदराबाद-500 016, दिनांक 11 जनवरी 2012

सं. पखनि-1/20/94-भर्ती/120--निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग श्री जी. वेणु, सहायक कार्मिक अधिकारी (पीबी.2 : रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/-), नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद को दिनांक 02.01.2012 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय में कर्मचारी संबंध अधिकारी (पीबी-2, रु. 9,300-- 34,800/- +ग्रेड वेतन रु. 4,800/-) के पद पर स्थानापन्न रूप से अस्थाई क्षमता में नियुक्त करते हैं।

पी. मोहन बाबु
मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

महानिदेशक, नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 13 जनवरी 2012

सं. ए-32013/14/2009-स्थापना-2--संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रपति महोदय, नागर विमानन महानिदेशक कार्यालय के निम्नलिखित सहायक निदेशक (विमान सुरक्षा) अधिकारियों को उनके नामों के आगे दर्शाई गई तारीख से उपनिदेशक (विमान सुरक्षा) के पद पर नियमित आधार पर पीबी-3 रु. 15,600--39,100/- ग्रेड पे 7,600/- रुपये के वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए नियुक्त किया जाता है:--

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री एस .के. ब्राम्हणे	21.11.2011 (पूर्वाह्न)
2.	श्री के. एल. मीणा	21.11.2011 (पूर्वाह्न)
3.	श्री एम. जे. सिंह	21.11.2011 (पूर्वाह्न)

बी. पट्टनायक
उप निदेशक (प्रशासन)
कृते नागर विमानन महानिदेशक

कम्पनी मामले मंत्रालय
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स महाबीर प्रसाद एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 3 जनवरी 2012

सं. 560 (5)/2096--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स महाबीर प्रसाद एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

चंडीगढ़, दिनांक 19 जनवरी 2012

सं. आरओसी/560/5/2000--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही निम्नलिखित कम्पनियों के नाम काट दिए गए हैं :--

क्र. सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	6502	मैसर्स आरती फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
2.	6512	मैसर्स आयनजर्स कन्सोर्टियम (प्रा.) लिमिटेड
3.	6513	मैसर्स प्रभात फाइनान्स एंड इन्वेस्टमेंट (प्रा.) लिमिटेड
4.	6516	मैसर्स नॉर्थ इंडिया मेडिकेयर लिमिटेड
5.	6517	मैसर्स यूनाईटेड इंडिया जनरल फाइनान्स एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
6.	6525	मैसर्स ओरियन्टल डाईंग प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
7.	6521	मैसर्स संतोष फाईनान्शियल कन्सल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	6534	मैसर्स सोहल हायर पर्चेज एंड फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड
9.	6532	मैसर्स यूनाइटेड फाईनान्शियल्स एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
10.	6653	मैसर्स मानव सेवा फाईनान्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इंडिया लिमिटेड
11.	6571	मैसर्स बंसल पब्लिशर्स एंड स्टेशनर्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	6575	मैसर्स पंजाब इंडस्ट्रियल ग्रैड्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	6583	मैसर्स अपोलो फार्मेसी प्राईवेट लिमिटेड
14.	6600	मैसर्स रामा फर्टीलाइजर्स लिमिटेड
15.	6606	मैसर्स औलख रिकवरी क्लेम्प ब्यूरो प्राईवेट लिमिटेड
16.	6608	मैसर्स सेठी इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	6607	मैसर्स एस. एन. मुंजल इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	6618	मैसर्स भगवती कैम-ऑयल्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	6620	मैसर्स पंजाब ऑयल्स एंड जनरल एगो प्राईवेट लिमिटेड
20.	6622	मैसर्स जी एंड बी फाईनान्शियर्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	6623	मैसर्स एशियन मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	6625	मैसर्स यश फाईनान्शियर्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	6628	मैसर्स आकाश हायर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड
24.	6632	मैसर्स कमला स्पिनिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	6635	मैसर्स सिद्धू टैक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	6636	मैसर्स सीता राम शोरी लाल प्राईवेट लिमिटेड
27.	6634	मैसर्स टी. सी. फैंरो कास्ट प्राईवेट लिमिटेड
28.	6647	मैसर्स अमरप्रीत फाईनान्स लिमिटेड
29.	6644	मैसर्स एवरग्रीन इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	6654	मैसर्स स्टील फैब प्राईवेट लिमिटेड
31.	6656	मैसर्स कपूर स्पिनिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	6657	मैसर्स जगदम्बा स्पिनिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	6659	मैसर्स नौनिहाल फाईनान्स एंड जनरल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
34.	6661	मैसर्स जे. जी. फाईनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	6664	मैसर्स यूनीक स्टील इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	6669	मैसर्स के. डी. पी. डाटा प्रोसेसिंग प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
37.	6676	मैसर्स यूनीक सेल्स एंड सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
38.	6679	मैसर्स सर्वप्रिया इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	6682	मैसर्स यूनीक ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	6687	मैसर्स भगत फाईनान्स कं. प्राईवेट लिमिटेड
41.	6692	मैसर्स जे. एम. वूलन स्पिनिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	6694	मैसर्स ओसांग ब्रदर्स फाईनान्स एंड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
43.	6698	मैसर्स के. सन्स हौजरी इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
44.	6701	मैसर्स प्रीत पैलेस होटल एंड रेस्टोरेंट प्राईवेट लिमिटेड
45.	6724	मैसर्स पूजा होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
46.	6725	मैसर्स एम्पायर रेडिएटर्स लिमिटेड
47.	6733	मैसर्स बाबा मोटर हायर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड
48.	6735	मैसर्स सोनू फाईनान्शियर्स प्राईवेट लिमिटेड
49.	6745	मैसर्स सुपर स्टैण्डर्ड प्रिंटिंग मशीनरीज प्राईवेट लिमिटेड
50.	6741	मैसर्स पंजाब पैट्रो फैंब्रिक्स लिमिटेड
51.	6748	मैसर्स मित्तल आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
52.	6754	मैसर्स पैसिफिक सी फूड्स लिमिटेड
53.	6766	मैसर्स बलवंत पेपर मोल्डिंग प्राईवेट लिमिटेड
54.	6776	मैसर्स रिलायन्स इन्वेस्टमेंट एंड लीजिंग लिमिटेड
55.	6783	मैसर्स बी. वी. एम. डाटा कन्ट्रोल्स प्राईवेट लिमिटेड
56.	6787	मैसर्स नागपाल स्टील्स लिमिटेड
57.	6790	मैसर्स पिण्डी फाईनान्शियर्स प्राईवेट लिमिटेड
58.	6799	मैसर्स गुरु फाईनान्शियर्स प्राईवेट लिमिटेड
59.	6804	मैसर्स यूनाइटेड इंडिया लैण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
60.	6810	मैसर्स सहाय कलर लैब प्राईवेट लिमिटेड
61.	6812	मैसर्स मॉडर्न एगो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
62.	6825	मैसर्स इंडियन एगो केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
63.	6835	मैसर्स बरेली फाईनेंस एंड हायर पर्चेस प्राईवेट लिमिटेड
64.	6861	मैसर्स गुरु नानक इन्वेस्टमेंट एंड हायर पर्चेस प्राईवेट लिमिटेड
65.	6868	मैसर्स अरबी केमिकल्स पंजाब लिमिटेड
66.	6872	मैसर्स सरस्वती एगो कैम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
67.	6877	मैसर्स नवयुग डिपोजिट्स इन्वेस्टर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
68.	6884	मैसर्स हेमकुंट प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड
69.	6883	मैसर्स ट्रीनिटी ट्रेडिंग एंड एजेंसीस प्राइवेट लिमिटेड
70.	6893	मैसर्स फीयरलेस फाईनेंस कंपनी लिमिटेड
71.	6896	मैसर्स के. के. एडवर्टाइजिंग कंपनी लिमिटेड
72.	6899	मैसर्स डी. आर. फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
73.	6900	मैसर्स गोल्डन मोटर हायर पर्वेज प्राइवेट लिमिटेड
74.	6915	मैसर्स रेटोनल जरनल फाईनेंस इंडिया लिमिटेड
75.	6912	मैसर्स एच. जी. एस. फाईनेंस प्राइवेट लिमिटेड
76.	6914	मैसर्स मैक्स पॉली पाईप्स प्राइवेट लिमिटेड
77.	6920	मैसर्स सतगुरु फाईनेंशियर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
78.	6926	मैसर्स डी. बी. एस. कंसल्टेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
79.	6934	मैसर्स एच. टी. एस. इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
80.	6936	मैसर्स नॉर्दन हायर पर्वेज प्राइवेट लिमिटेड
81.	6935	मैसर्स साहिबजादा चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
82.	6943	मैसर्स कैपरीकॉर्न मर्कैन्टाईल प्राइवेट लिमिटेड
83.	6946	मैसर्स डिकटॉन कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
84.	6951	मैसर्स पाल पाईप्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
85.	6953	मैसर्स कृष्णा इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड
86.	6962	मैसर्स हेमकुण्ड चिट फंड एंड फाईनेंस प्राइवेट लिमिटेड
87.	6963	मैसर्स संदीप होटल प्राइवेट लिमिटेड
88.	6964	मैसर्स मनसा एडवांसिस प्राइवेट लिमिटेड
89.	6965	मैसर्स नीलम साईकल्स प्राइवेट लिमिटेड
90.	6968	मैसर्स हाई-टैक लैडरवेयर प्राइवेट लिमिटेड
91.	6970	मैसर्स पोलाईट जरनल फाईनेंस लिमिटेड
92.	6983	मैसर्स कलचरनी ट्रांसपोर्ट एंड फाईनेंस प्राइवेट लिमिटेड
93.	6986	मैसर्स जौली फाईनेंस एंड हायर पर्वेज प्राइवेट लिमिटेड
94.	6985	मैसर्स इंटरप्रेटिड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
95.	7001	मैसर्स प्रोग्रेसिव पेपर एंड बोर्ड मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
96.	7003	मैसर्स आनंद लीज एंड एडवांसिस प्राइवेट लिमिटेड
97.	7012	मैसर्स स्काई वेज रबर्स प्राइवेट लिमिटेड
98.	7013	मैसर्स खन्ना एग्रो प्राइवेट लिमिटेड
99.	7020	मैसर्स मैगस फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
100.	7024	मैसर्स सजदा फाईनेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड

1	2	3
101.	7028	मैसर्स कोहिनूर सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
102.	7029	मैसर्स गोल्डन एग्रो एनर्जिज प्राइवेट लिमिटेड
103.	7037	मैसर्स त्रिवेनी क्रेडिट्स एंड जनरल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
104.	7038	मैसर्स स्वास्तिक रोलर फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
105.	7039	मैसर्स गौरव लीज एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड
106.	7041	मैसर्स यूनिवर्सल इन-कास्ट लिमिटेड
107.	7050	मैसर्स जयसिंह इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
108.	7051	मैसर्स ए. आर. इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड
109.	7045	मैसर्स इंडिया फार्म लैण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
110.	7055	मैसर्स अमितोज फाईनेंस प्राइवेट लिमिटेड
111.	7068	मैसर्स सुरेश रोलर एंड फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
112.	7079	मैसर्स रामसन्स मैटल्स प्राइवेट लिमिटेड
113.	7077	मैसर्स हेमकुंट प्लास्टिक्स एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
114.	7092	मैसर्स सी. एस. मोदी फाईनेंस प्राइवेट लिमिटेड
115.	7099	मैसर्स प्रगति टायर्स प्राइवेट लिमिटेड
116.	7102	मैसर्स जे. सी. डी. फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
117.	7103	मैसर्स कमल हायर पर्वेज प्राइवेट लिमिटेड
118.	7106	मैसर्स सनफ्लैग निटवीयर्स प्राइवेट लिमिटेड
119.	7104	मैसर्स खुशल फाईनेंस एंड हायर पर्वेज प्राइवेट लिमिटेड
120.	7108	मैसर्स जाको फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड
121.	7110	मैसर्स जगजोत फाईनेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड
122.	7111	मैसर्स भूपल लीज एंड एडवांसिस प्राइवेट लिमिटेड
123.	7115	मैसर्स रमाना फार्म्स एंड फाईनेंसिज प्राइवेट लिमिटेड
124.	7117	मैसर्स जे एंड के मॉडर्न एलायज एंड कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
125.	7123	मैसर्स फारमर्स फाईनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
126.	7125	मैसर्स वूलरिच वूलन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
127.	7138	मैसर्स विकास वायर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
128.	7128	मैसर्स विशाल सीरियल्स प्राइवेट लिमिटेड
129.	7140	मैसर्स मोहरटेक्स सिल्क मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
130.	7144	मैसर्स पंजाब सैक्स लिमिटेड
131.	7152	मैसर्स थापर प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
132.	7153	मैसर्स गजरत हायर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड	163.	7292	मैसर्स ब्रदर्स एस्टेट होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
133.	7154	मैसर्स नूरमहल फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड	164.	7291	मैसर्स वोरटैक्स फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
134.	7155	मैसर्स दानवीर जरनल फाईनेंस इंडिया लिमिटेड	165.	7301	मैसर्स एस. आर. एस. फाईनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
135.	7158	मैसर्स अरनेजा हायर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड	166.	7308	मैसर्स स्टार डाईंग एंड फिनिशिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
136.	7172	मैसर्स अपना हाऊस जरनल फाईनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड	167.	7309	मैसर्स शक्ति प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड
137.	7176	मैसर्स गोल्डन लैंडर्स प्राईवेट लिमिटेड	168.	7318	मैसर्स सार्नइलैक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
138.	7179	मैसर्स आनंदपुर साहिब हायर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड	169.	7319	मैसर्स अम्बिका रबर एंड सिंथेटिक मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
139.	7189	मैसर्स ए. बी. पी. डाटा मीडिया एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड	170.	7334	मैसर्स रोहिनी सिंथेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
140.	7188	मैसर्स पार्वती केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	171.	7341	मैसर्स लुधियाना मोटर फाईनेंस कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
141.	7193	मैसर्स स्वर्ण पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड	172.	7342	मैसर्स एम. जी. लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
142.	7198	मैसर्स इलीट स्पिनर्स प्राईवेट लिमिटेड	173.	7349	मैसर्स ब्रावोस जरनल फाईनेंस लिमिटेड
143.	7205	मैसर्स पंजाब कंक्रीट फैंब्रिकेटर्स प्राईवेट लिमिटेड	174.	7369	मैसर्स मालवा इलैक्ट्रोक्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
144.	7208	मैसर्स मारशियन फूड्स प्राईवेट लिमिटेड	175.	7377	मैसर्स ओमसन्स ओवरसीस प्राईवेट लिमिटेड
145.	7210	मैसर्स एशियन टायर्स प्राईवेट लिमिटेड	176.	7381	मैसर्स जे. जे. अप्लायन्सिस प्राईवेट लिमिटेड
146.	7211	मैसर्स विक्सन फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड	177.	7384	मैसर्स पारशव ऑयल मिल्स कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
147.	7217	मैसर्स दरार हायर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड	178.	7379	मैसर्स करवल फोटोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
148.	7218	मैसर्स एकता इन्वेस्टमेंट्स एंड हायर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड	179.	7387	मैसर्स एयरमेन हायर पर्चेज एंड फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड
149.	7220	मैसर्स सामरा लैम्ब्स प्राईवेट लिमिटेड	180.	7392	मैसर्स जीमीदारा फाईनेंस एंड ट्रेडर्स इंडिया लिमिटेड
150.	7225	मैसर्स आनंद रोडवेज़ प्राईवेट लिमिटेड	181.	7400	मैसर्स बेन इलैक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
151.	7232	मैसर्स ई एंड सी कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड	182.	7401	मैसर्स जिन-सिन यार्न्स प्राईवेट लिमिटेड
152.	7234	मैसर्स दशहारी फ्यूल कंपनी लिमिटेड	183.	7415	मैसर्स प्रिविलेज कार्ड प्राईवेट लिमिटेड
153.	7242	मैसर्स एरियन बायोकोस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड	184.	7427	मैसर्स उर्मर फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड
154.	7243	मैसर्स पुनीत रिसोर्ट्स लिमिटेड	185.	7430	मैसर्स केज फिनलीज़ प्राईवेट लिमिटेड
155.	7246	मैसर्स सनब्रो डाटा कम्यूनिकेशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड	186.	7447	मैसर्स धरती स्माल इन्वेस्टमेंट्स इंडिया लिमिटेड
156.	7253	मैसर्स गर्ग रिफैक्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड	187.	7453	मैसर्स फ्रैण्ड्स हायर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड
157.	7261	मैसर्स रॉयल रोलर फ्लोर एंड जरनल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	188.	7456	मैसर्स सुरेंद्रा हायर पर्चेज कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
158.	7264	मैसर्स कुलवंत फाईनेंशियर्स प्राईवेट लिमिटेड	189.	7452	मैसर्स चन्नी फाईनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
159.	7268	मैसर्स हरभजन फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड	190.	7464	मैसर्स न्यू मोगा हायर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड
160.	7275	मैसर्स कोटी पैकर्स प्राईवेट लिमिटेड	191.	7470	मैसर्स वेटरन टैक्नीकोन्स प्राईवेट लिमिटेड
161.	7278	मैसर्स बरार हायर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड	192.	7471	मैसर्स जिम्मी फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड
162.	7286	मैसर्स प्रीत फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड	193.	7476	मैसर्स कोटी खनिज प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
194.	7477	मैसर्स कोटी एन्टरप्राइसिज प्राईवेट लिमिटेड
195.	7486	मैसर्स गोविंद प्रताप पाईप प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
196.	7487	मैसर्स बी. के. हायर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड
197.	7491	मैसर्स इण्डो हायर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड
198.	7489	मैसर्स मोण्ड एन्ट्रेसिक्स प्राईवेट लिमिटेड
199.	7493	मैसर्स ऑन आईज़ जनरल फाईनैस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
200.	7499	मैसर्स ईश्वर इलैक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
201.	7498	मैसर्स रविपाल निटक्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
202.	7503	मैसर्स क्लैरिऑन फिल्मस लिमिटेड
203.	7507	मैसर्स गुरु नानक टेक्सटाईल प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड
204.	7509	मैसर्स नीपन कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
205.	7514	मैसर्स रोलैण्ड निटवीयर प्राईवेट लिमिटेड
206.	7518	मैसर्स जैनसन एसिड्स प्राईवेट लिमिटेड
207.	7521	मैसर्स गिल सन्स प्रिंटिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
208.	7524	मैसर्स आर. आर. सिल्क मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
209.	7525	मैसर्स इलाहाबाद जनरल इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड
210.	7532	मैसर्स सैंचो फार्मास्यूटीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
211.	7537	मैसर्स नाबुला फाईनैशियल सर्विसेस लिमिटेड
212.	7536	मैसर्स इडोस फाईनैस एंड लीजिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
213.	7550	मैसर्स पंजाब कलर्स एंड पिगमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
214.	7554	मैसर्स झंकार होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
215.	7556	मैसर्स आर आर कॉन्टैक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
216.	7561	मैसर्स मॉडर्न प्लानर्स प्राईवेट लिमिटेड
217.	7570	मैसर्स पंजाब कॉयल स्प्रिंग्स लिमिटेड
218.	7574	मैसर्स जगरॉन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
219.	7575	मैसर्स दीवान हायर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड
220.	7577	मैसर्स वेदाम लीजिंग एंड फाईनैस कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
221.	7585	मैसर्स गिल पानो बस सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
222.	7590	मैसर्स करुणा होलिडिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
223.	7595	मैसर्स स्टर्लिंग टोबाको कंपनी लिमिटेड
224.	7598	मैसर्स जालंधर पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
225.	7614	मैसर्स सुश्रुत हर्ब्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
226.	7617	मैसर्स ईगल इन्वेस्टमेंट्स एंड हायर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड
227.	7622	मैसर्स वालिया केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
228.	7628	मैसर्स पवार एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
229.	7631	मैसर्स सिम्मा फाईनैस कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
230.	7637	मैसर्स टी डी इन्वेस्टमेंट कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
231.	7640	मैसर्स पावर प्लास्टिक्स एंड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
232.	7645	मैसर्स निप्पन लैटरिट्स प्राईवेट लिमिटेड
233.	7654	मैसर्स जुनेजा हायर पर्चेज एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
234.	7663	मैसर्स लोक सेवा हायर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड
235.	7692	मैसर्स मित राज पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
236.	7694	मैसर्स सनोरा इलैक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
237.	7698	मैसर्स हिल्टन इंस्टेंट फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
238.	7701	मैसर्स लक्ष्मी टेली ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
239.	7702	मैसर्स एन. आई. सी. फाईनैस इंडिया लिमिटेड
240.	7711	मैसर्स गुरिया बस सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
241.	7725	मैसर्स कुलदुनी इन्वेस्टमेंट एंड फाईनैस लिमिटेड
242.	7733	मैसर्स अनुपम हायर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड
243.	7734	मैसर्स विशाल हायर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड
244.	7735	मैसर्स चैम्पियन प्रोसेसर प्राईवेट लिमिटेड
245.	7738	मैसर्स डायमण्ड ट्री यूकलिप्टस लिमिटेड
246.	7742	मैसर्स जिरा मोटर फाईनैस प्राईवेट लिमिटेड
247.	7750	मैसर्स बेदी रबर फैक्ट्री प्राईवेट लिमिटेड
248.	7753	मैसर्स यू एम टी सी लैथ्स प्राईवेट लिमिटेड
249.	7755	मैसर्स अशोका वनस्पति प्राईवेट लिमिटेड
250.	7763	मैसर्स चामण्डा स्टील ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड
251.	7766	मैसर्स डूपलैक्स जनरल फाईनैस एंड इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड
252.	7764	मैसर्स चण्डीगढ़ हीट ट्रीटमेंट सेंटर प्राईवेट लिमिटेड
253.	7768	मैसर्स एस के हायर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड
254.	7773	मैसर्स रेज़ ज़रनल फाईनैस एंड इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड
255.	7774	मैसर्स लोकनिर्माण हाऊसिंग एंड हायर पर्चेज इंडिया लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
256.	7772	मैसर्स बेरजेन एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड	290.	7940	मैसर्स स्वीटी फाईनेस प्राईवेट लिमिटेड
257.	7782	मैसर्स ग्रीन गोल्ड मीडोस होल्डिंग प्राईवेट लिमिटेड	291.	7948	मैसर्स सरान फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
258.	7787	मैसर्स लम्बरदार फाईनेस कंपनी प्राईवेट लिमिटेड	292.	7950	मैसर्स खजाना इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
259.	7788	मैसर्स जी. के. ऑटो पार्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	293.	7953	मैसर्स हेम कुण्ड लाईन्स प्राईवेट लिमिटेड
260.	7794	मैसर्स डेबी फाईनेस एंड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड	294.	7954	मैसर्स हरकीरत होल्डिंग प्राईवेट लिमिटेड
261.	7796	मैसर्स जॉनी संजीव हायर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड	295.	7999	मैसर्स सुप्रीम डिपोजिट्स एंड एडवान्सिस लिमिटेड
262.	7805	मैसर्स केसर सेल्स प्राईवेट लिमिटेड	296.	8002	मैसर्स ओमनी टाईपसेट प्रेस प्राईवेट लिमिटेड
263.	7804	मैसर्स दीपक एलॉयज एंड स्ट्रिप्स लिमिटेड	297.	8004	मैसर्स लुधियाना प्रिंटर्स प्राईवेट लिमिटेड
264.	7815	मैसर्स पड्डा फाईनेस प्राईवेट लिमिटेड	298.	8008	मैसर्स पटियाला पेजसेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
265.	7837	मैसर्स एच एम वी ट्रांसफिगरेशन्स प्राईवेट लिमिटेड	299.	8000	मैसर्स गोपी फ्लोर मिल प्राईवेट लिमिटेड
266.	7839	मैसर्स रमन एडवांसिस प्राईवेट लिमिटेड	300.	8011	मैसर्स अंबाला प्रिंटर्स प्राईवेट लिमिटेड
267.	7843	मैसर्स रिलायन्स क्रैन्स प्राईवेट लिमिटेड	301.	8012	मैसर्स राजपुरा टाईपसेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
268.	7844	मैसर्स हडिम्बा रिसोर्ट्स एंड होटल्स प्राईवेट लिमिटेड	302.	8015	मैसर्स फगवारा फोटोसेट ग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड
269.	7860	मैसर्स जे जे हायर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड	303.	8019	मैसर्स अंबाला पब्लिशिंग प्राईवेट लिमिटेड
270.	7862	मैसर्स ओरसन लैबोरेट्रीस प्राईवेट लिमिटेड	304.	8022	मैसर्स यूनाइटेड रूरल डेवलपमेंट प्लान्स लिमिटेड
271.	7864	मैसर्स परफैक्ट टूल्स प्राईवेट लिमिटेड	305.	8021	मैसर्स एच एच चिट फंड एंड फाईनेस प्राईवेट लिमिटेड
272.	7876	मैसर्स रायुम लैदर प्राईवेट लिमिटेड	306.	8036	मैसर्स बेकर्स फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
273.	7881	मैसर्स जी बी एम पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड	307.	8045	मैसर्स सामरा सी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
274.	7887	मैसर्स सेण्डी स्वीट चेम्बर लिमिटेड	308.	8050	मैसर्स रोमेश साल्ते कैम्प इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
275.	7899	मैसर्स के सी इन्स्युलेटर्स प्राईवेट लिमिटेड	309.	8056	मैसर्स वेलोस फार्मास्यूटीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
276.	7901	मैसर्स रेड रोज़ ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड	310.	8071	मैसर्स ए एल फाईनेशियर्स प्राईवेट लिमिटेड
277.	7904	मैसर्स अमित हायर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड	311.	8078	मैसर्स जी हरमीटेज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
278.	7911	मैसर्स डौवेल डिस्टिलरीस प्राईवेट लिमिटेड	312.	8079	मैसर्स सेंट इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
279.	7916	मैसर्स आशिर्वाद हॉस्पिटल्स प्राईवेट लिमिटेड	313.	8075	मैसर्स एरो इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
280.	7917	मैसर्स आनंद हाईवेज प्राईवेट लिमिटेड	314.	8083	मैसर्स महाजन ब्रदर्स स्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
281.	7920	मैसर्स सोना कन्डक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	315.	8087	मैसर्स बचन ऑटो हायर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड
282.	7925	मैसर्स चहल फाईनेस प्राईवेट लिमिटेड	316.	8091	मैसर्स टैक्नो वायर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
283.	7927	मैसर्स कनवर हायर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड	317.	8097	मैसर्स एस एम टी एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
284.	7931	मैसर्स अंगद एप्लायन्सिस लिमिटेड	318.	8103	मैसर्स एस. एस. पोल्ट्री फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
285.	7932	मैसर्स गिफ्ट साईकल्स प्राईवेट लिमिटेड	319.	8099	मैसर्स जैपसन रबर्स प्राईवेट लिमिटेड
286.	7933	मैसर्स सतलेज निटवीयर प्राईवेट लिमिटेड	320.	8110	मैसर्स लाडली कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
287.	7930	मैसर्स ऑंकार लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड	321.	8111	मैसर्स इंदिरा ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
288.	7936	मैसर्स रामा पाईप्स प्राईवेट लिमिटेड	322.	8128	मैसर्स ई पी एस पैक्स प्राईवेट लिमिटेड
289.	7938	मैसर्स पैप्पी डिपोजिट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3	1	2	3
323.	8135	मैसर्स जी बी आम स्पिंग्स प्राईवेट लिमिटेड			लिमिटेड
324.	8143	मैसर्स ओरीऑन मेडिकेम प्राईवेट लिमिटेड	353.	8477	मैसर्स एप्पल कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
325.	8147	मैसर्स एम. बी. फास्टनर्स प्राईवेट लिमिटेड	354.	8286	मैसर्स जी डी बी इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
326.	8157	मैसर्स प्रिंस मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड	355.	8288	मैसर्स डेकोरा फैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
327.	8163	मैसर्स मागनी केम इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	356.	8296	मैसर्स एम आर इम्पेक्स ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
328.	8173	मैसर्स नॉर्दन लैण्ड डेवलपमेंट एंड हाऊसिंग फाईनैस लिमिटेड	357.	8300	मैसर्स चेवरौन फोजिग्स प्राईवेट लिमिटेड
329.	8177	मैसर्स करतार टिम्बर्स प्राईवेट लिमिटेड	358.	8318	मैसर्स डाई टूल्स एंड कास्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
330.	8178	मैसर्स प्रीत स्पिनिंग एंड डाईंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	359.	8321	मैसर्स अनुपम इलैक्ट्रो केम प्राईवेट लिमिटेड
331.	8184	मैसर्स अमर (इंडिया) टूल्स मैनुफैक्चरिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड	360.	8322	मैसर्स क्राउनस्टार डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
332.	8175	मैसर्स एसटर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	361.	8325	मैसर्स श्री मंगलम राईस एंड जनरल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
333.	8172	मैसर्स सहगल सन्स मैडिसिन प्राईवेट लिमिटेड	362.	8326	मैसर्स दलीप फाईनैस प्राईवेट लिमिटेड
334.	8185	मैसर्स क्लासिक सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	363.	8327	मैसर्स शंकर दास लोक राज ऑयल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
335.	8192	मैसर्स फरपाईल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	364.	8328	मैसर्स जिंदल इन्वेस्टमेंट कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
336.	8197	मैसर्स मक्कर रिम्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	365.	8320	मैसर्स जीत हायर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड
337.	8199	मैसर्स जी एस ए फाईनैस एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	366.	8334	मैसर्स शक्ति हायर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड
338.	8230	मैसर्स नंदा मेडिसिन सेंटर प्राईवेट लिमिटेड	367.	8342	मैसर्स खंगुरा एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
339.	8191	मैसर्स एपैक्स पैकर्स प्राईवेट लिमिटेड	368.	8344	मैसर्स विमोनी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
340.	8194	मैसर्स एसोसिएटिड ग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड	369.	8348	मैसर्स ओंकार लीजिंग एंड हायर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड
341.	8216	मैसर्स चैतन्या हायर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड	370.	8359	मैसर्स दीप वूलन मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
342.	8207	मैसर्स ओरियन्टल एग्रो प्राईवेट लिमिटेड	371.	8354	मैसर्स एथिकॉम्ब फार्मास्यूटीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
343.	8252	मैसर्स यूनिवर्सल हायर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड	372.	8357	मैसर्स एस इलैक्ट्रोविजन प्राईवेट लिमिटेड
344.	8254	मैसर्स रेडसन ऑटो एन्टरप्राइसेस प्राईवेट लिमिटेड	373.	8358	मैसर्स साहिल इन्वेस्टमेंट्स एंड चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
345.	8255	मैसर्स वर्ल्ड्स वर्थ लीजिंग एंड होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड	374.	8362	मैसर्स स्वर्न डिपोजिट्स एंड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
346.	8256	मैसर्स व्हील्स वर्ल्ड ऑटो प्राईवेट लिमिटेड	375.	8364	मैसर्स जस्सी स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
347.	8258	मैसर्स मनौर एजेंसिज प्राईवेट लिमिटेड	376.	8367	मैसर्स भूपिंद्रा हायर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड
348.	8268	मैसर्स शालीमार फूड्स प्राईवेट लिमिटेड	377.	8368	मैसर्स अरिन्द्रा स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
349.	8276	मैसर्स जनारक्षण लीजिंग एंड हायर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड	378.	8372	मैसर्स हरमन इन्वेस्टमेंट एंड डिपोजिट्स लिमिटेड
350.	8283	मैसर्स जसबुद्ध फाईनैस प्राईवेट लिमिटेड	379.	8389	मैसर्स आरती इन्वेस्टमेंट एंड हायर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड
351.	8279	मैसर्स पामा एजेंसिज प्राईवेट लिमिटेड	380.	8386	मैसर्स टान्डी डाटा इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
352.	8280	मैसर्स जे ए जी जी एस फाईनैस एंड लीजिंग प्राईवेट	381.	8396	मैसर्स दीप एग्रो प्राईवेट लिमिटेड
			382.	8411	मैसर्स जी जी फाईनैस एंड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
383.	8413	मैसर्स जालंधर लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
384.	8419	मैसर्स क्रोनी केम प्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड
385.	8423	मैसर्स अवनीत रबर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
386.	8424	मैसर्स आधारशिला इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
387.	8414	मैसर्स न्यू लाईफ फोरेस्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
388.	8429	मैसर्स कोहली हायर पचेज प्राईवेट लिमिटेड
389.	8434	मैसर्स जुपिटर इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
390.	8435	मैसर्स एन आर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
391.	8441	मैसर्स रेनबैक्स एम्प्लॉयज वेलफेयर लिमिटेड
392.	8443	मैसर्स अटरान्टिका इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
393.	8474	मैसर्स आर के एडिबल्स प्राईवेट लिमिटेड
394.	8482	मैसर्स मजबूत पैकर्स एंड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
395.	8484	मैसर्स राशनल फोरेस्ट्स लिमिटेड
396.	8492	मैसर्स ई आर फाईनेस एंड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
397.	8497	मैसर्स मॉडल हायर पचेज प्राईवेट लिमिटेड
398.	8509	मैसर्स एवरेस्ट कैरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
399.	8513	मैसर्स बी. एस. हायर पचेज प्राईवेट लिमिटेड
400.	8515	मैसर्स एस एल एफ बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
401.	8514	मैसर्स मारी गोल्ड गारमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
402.	8520	मैसर्स खारा इन्वेस्टमेंट एंड हायर पचेज प्राईवेट लिमिटेड
403.	8517	मैसर्स अम्बर डिपोजिट्स प्राईवेट लिमिटेड
404.	8519	मैसर्स राकेश कुमार गुप्ता कॉन्ट्रैक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
405.	8533	मैसर्स जालंधर इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
406.	8543	मैसर्स इसौस फाईनेस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
407.	8544	मैसर्स श्री गणेश हायर पचेज प्राईवेट लिमिटेड
408.	8561	मैसर्स एमबैस्सी एप्लायंसिस प्राईवेट लिमिटेड
409.	8565	मैसर्स जशन फाईनेस एंड इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड
410.	8592	मैसर्स पानधेर फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
411.	8598	मैसर्स रजनी स्टील ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड
412.	8599	मैसर्स पैराडाईस हायर पचेज प्राईवेट लिमिटेड
413.	8608	मैसर्स संधू हायर पचेज प्राईवेट लिमिटेड
414.	8604	मैसर्स औरकल कम्यूनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
415.	8606	मैसर्स मोहन टेन्ट सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
416.	8613	मैसर्स ममता कार्गो एंड ट्रेवलस प्राईवेट लिमिटेड
417.	8615	मैसर्स एच. एस. पी. हाऊसिंग एंड हायर पचेज लिमिटेड
418.	8619	मैसर्स मशेट फाईनेस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
419.	8636	मैसर्स लिनियी फाईनेस एंड इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड
420.	8637	मैसर्स कालरा इन्वेस्टमेंट कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
421.	8639	मैसर्स रनबीर हायर पचेज प्राईवेट लिमिटेड
422.	8638	मैसर्स क्लासप्रो रेमेडीज़ प्राईवेट लिमिटेड
423.	8640	मैसर्स नैट इन्वेस्टमेंट एंड फाईनेस इंडिया लिमिटेड
424.	8646	मैसर्स सिंथेटिक ट्रेडिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
425.	8651	मैसर्स मोहनमीत बिल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
426.	8656	मैसर्स तरनुम केमिकल्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
427.	8670	मैसर्स कश्मीर डिपोजिट्स एंड एडवांसिज प्राईवेट लिमिटेड
428.	8677	मैसर्स इलोरा होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
429.	8682	मैसर्स आराधना कार्स्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
430.	8694	मैसर्स सिमरूप लीजिंग्स एंड फाईनेस कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
431.	8698	मैसर्स एंजल डिपोजिट्स एंड हाऊसिंग डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड
432.	8699	मैसर्स पैराडाईस फोरेस्ट्स डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड
433.	8700	मैसर्स निभई फाईनेशियर्स प्राईवेट लिमिटेड
434.	8704	मैसर्स शक्ति सिंथेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
435.	8702	मैसर्स वी. एम. हायर पचेज प्राईवेट लिमिटेड
436.	8706	मैसर्स डी. एच. एल. फाईनेस एंड इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड
437.	8711	मैसर्स जय वीर डिपोजिट्स एंड एडवांसिज प्राईवेट लिमिटेड
438.	8720	मैसर्स चण्डीगढ़ लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
439.	8726	मैसर्स कपूरथला डिपोजिट्स एंड एडवांसिज प्राईवेट लिमिटेड
440.	8727	मैसर्स बी डी सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
441.	8728	मैसर्स चुनधारी कॉटन एंड एलाईड मिल्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
442.	8729	मैसर्स पंछी लीजिंग एंड फाईनेंस कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
443.	8734	मैसर्स नॉर्दन ट्रांसफार्मर्स एंड पावर कन्ट्रोलर्स प्राईवेट लिमिटेड
444.	8744	मैसर्स कौरा कोसमोपाक इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
445.	8747	मैसर्स ओरियन्ट टैक इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
446.	8748	मैसर्स डिवाइन सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
447.	8746	मैसर्स सूद हैचरीज एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
448.	8758	मैसर्स मनरूप टूरिज्म प्राईवेट लिमिटेड
449.	8763	मैसर्स टी एस मोटर एंड जनरल फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड
450.	8765	मैसर्स हरविन्दर मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
451.	8757	मैसर्स जम्मू होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
452.	8764	मैसर्स लुधियाना केमटैक प्राईवेट लिमिटेड
453.	8771	मैसर्स क्लासिक डीलर्स एंड एडवांसिस प्राईवेट लिमिटेड
454.	8772	मैसर्स डीसेंट डीलर्स एंड एडवांसिस प्राईवेट लिमिटेड
455.	8773	मैसर्स हरियाणा डीलर्स एंड एडवांसिस प्राईवेट लिमिटेड
456.	8778	मैसर्स भाई स्टील एन्टरप्राइसिस प्राईवेट लिमिटेड
457.	8780	मैसर्स एच. एल. एस. डिपोजिट्स एंड एडवांसिस इंडिया लिमिटेड
458.	8787	मैसर्स सनराॅ ट्रान्समिशन प्राईवेट लिमिटेड
459.	8788	मैसर्स न्यू लाईट हायर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड
460.	8789	मैसर्स दुर्गा डिपोजिट्स एंड एडवांसिस लीजिंग लिमिटेड
461.	8797	मैसर्स बरार लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
462.	8798	मैसर्स एच. पी. एल. कैमिकल्स लिमिटेड
463.	8799	मैसर्स कीलौक सेफ्टी डिवाइसिस प्राईवेट लिमिटेड
464.	8816	मैसर्स चण्डी कन्टेनर्स प्राईवेट लिमिटेड
465.	8821	मैसर्स स्टेन्डर्ड हायर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड
466.	8830	मैसर्स जी. एस. कैरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
467.	8827	मैसर्स सुखना फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड
468.	8848	मैसर्स चरन कंवल हायर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
469.	8853	मैसर्स बाबा दीप सिंह लीजिंग एंड एजेंसी कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
470.	8860	मैसर्स गोविंदवाल डिपोजिट्स एंड एडवांसिस लिमिटेड
471.	8862	मैसर्स खजाना एडवांसिस एंड हायर पर्चेज फाईनेंस लिमिटेड
472.	8863	मैसर्स धनवीर हायर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड
473.	8869	मैसर्स के टी फाईनेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड
474.	8871	मैसर्स जगत क्रेडिट एंड ऑटो फाईनेंशियर्स प्राईवेट लिमिटेड
475.	8884	मैसर्स अबू मेटल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
476.	8878	मैसर्स जुनेजा इश्योरेंस सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
477.	8879	मैसर्स एम एम पैकेजिंग लिमिटेड
478.	8894	मैसर्स क्रेस्ट ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
479.	8902	मैसर्स बांका जनरल फाईनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
480.	8903	मैसर्स चहल वूलन मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
481.	8906	मैसर्स धीमन साईकल्स प्राईवेट लिमिटेड
482.	8926	मैसर्स ग्लोब लीजिंग एंड स्माल फाईनेंशियर्स प्राईवेट लिमिटेड
483.	8933	मैसर्स सामी फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड
484.	8937	मैसर्स सैनी शुभलाभ लक्ष्मी एंड फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड
485.	8938	मैसर्स ओरियन्ट डिपोजिट्स एंड एडवांसिस इंडिया लिमिटेड
486.	8943	मैसर्स ब्रोडा फाईनेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड
487.	8957	मैसर्स वारीयाम हायर पर्चेज फाईनेंस कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
488.	8959	मैसर्स कामालाईन फार्मास्यूटीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
489.	8972	मैसर्स मोहन इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
490.	8970	मैसर्स हाईटायड फाईनेंस एंड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
491.	8976	मैसर्स चण्डी इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
492.	8981	मैसर्स दयाल आईस फैक्ट्री प्राईवेट लिमिटेड
493.	8983	मैसर्स भाम फाईनेंस कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
494.	8986	मैसर्स के. आर. कॉमर्शियल्स प्राईवेट लिमिटेड
495.	8990	मैसर्स जी. एस. हायर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड
496.	8993	मैसर्स शिव शंकर इंजीनियरिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
497.	9996	मैसर्स ग्रीन इंडिया डेरीज़ प्राईवेट लिमिटेड	528.	9118	मैसर्स लॉयन वूलन मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
498.	9003	मैसर्स बैन्स हायर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड	529.	9122	मैसर्स आरसी ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
499.	9009	मैसर्स पीकॉक ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राईवेट लिमिटेड	530.	9128	मैसर्स राजधानी हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
500.	9018	मैसर्स हरजी हायर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड	531.	9134	मैसर्स गुरपरताप हाऊसिंग लीजिंग एंड फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड
501.	9030	मैसर्स एवरशाइन हायर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड	532.	9137	मैसर्स सिटीजन एडवांसिस एंड डिपोजिट्स (इंडिया) लिमिटेड
502.	9032	मैसर्स एम. पी. हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड	533.	9141	मैसर्स पॉल डिपोजिट्स एंड एडवांसिस प्राईवेट लिमिटेड
503.	9038	मैसर्स डेबसी होटेल्स प्राईवेट लिमिटेड	534.	9148	मैसर्स एस. एन. होटेल्स एंड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
504.	9041	मैसर्स मजीठा फाईनेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड	535.	9149	मैसर्स बाठ हायर परचेज एंड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
505.	9045	मैसर्स इंडिया डिपोजिट्स एंड प्रोपर्टीस डेवलपमेंट लिमिटेड	536.	9150	मैसर्स अमृतसर डिपोजिट्स एंड एडवांसिस प्राईवेट लिमिटेड
506.	9049	मैसर्स राईटवे एग्रो फोरेस्ट्स इंडिया लिमिटेड	537.	9158	मैसर्स धालीवाल हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
507.	9050	मैसर्स मेगाकॉर्प इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड	538.	9163	मैसर्स किरण हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
508.	9053	मैसर्स गगन हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड	539.	9172	मैसर्स उजागर हायर परचेज फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड
509.	9059	मैसर्स आर. बी. यूकलिप्टस प्राईवेट लिमिटेड	540.	9182	मैसर्स कुमार डिपोजिट्स एंड एडवांसिस प्राईवेट लिमिटेड
510.	9054	मैसर्स शिवालिक रैंजर्स प्राईवेट लिमिटेड	541.	9183	मैसर्स अरोरा हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
511.	9055	मैसर्स कंप्लीट ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड	542.	9189	मैसर्स विजय लक्ष्मी डिपोजिट्स एंड एडवांसिस इंडिया लिमिटेड
512.	9062	मैसर्स पाजिका डिपोजिट्स एंड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड	543.	9190	मैसर्स पंजाब होल्डिंग्स एंड एडवांसिस प्राईवेट लिमिटेड
513.	9063	मैसर्स बांका हायर परचेज लिमिटेड	544.	9195	मैसर्स जनता डिपोजिट्स एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड
514.	9061	मैसर्स रीनी इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	545.	9196	मैसर्स जिट्सन पल्प एंड बोर्ड मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
515.	9067	मैसर्स एवरग्रीन लैण्ड एंड फाईनेशियर्स प्राईवेट लिमिटेड	546.	9199	मैसर्स ग्रेवाल मोटर एडवांसिस प्राईवेट लिमिटेड
516.	9069	मैसर्स दीप ट्रेडर्स एंड एडवांसिस प्राईवेट लिमिटेड	547.	9198	मैसर्स रेड रोज हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
517.	9064	मैसर्स सांपा फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड	548.	9203	मैसर्स सतनाम हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
518.	9066	मैसर्स परफैक्ट रीयल एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड	549.	9207	मैसर्स ए टी एल सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
519.	9082	मैसर्स नागी स्पिनिंग प्राईवेट लिमिटेड	550.	9220	मैसर्स नानकनाम चढ़दीकला ट्रांसपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
520.	9086	मैसर्स गोबिंद लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड	551.	9223	मैसर्स मुंद्रा पैक्स एंड कन्टेनर्स प्राईवेट लिमिटेड
521.	9090	मैसर्स पी जे हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड	552.	9234	मैसर्स आर के मोबाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
522.	9084	मैसर्स जी. एस. डिपोजिट्स प्राईवेट लिमिटेड	553.	9235	मैसर्स कमलेश फाईनेशियर्स प्राईवेट लिमिटेड
523.	9091	मैसर्स ब्यास कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	554.	9236	मैसर्स श्री स्टार ट्रेडिंग एंड लीजिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
524.	9099	मैसर्स शिव-ओम फार्म्स एंड फोरेस्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	555.	9238	मैसर्स जे एस हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
525.	9104	मैसर्स बालसन्स एडवांसिस प्राईवेट लिमिटेड			
526.	9116	मैसर्स प्रीतम ऑटो एडवांसिस प्राईवेट लिमिटेड			
527.	9117	मैसर्स के एस दुआ एलोएज़ प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3
556.	9245	मैसर्स चतुरभुज हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
557.	9257	मैसर्स सी. डी. इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड
558.	9259	मैसर्स गोल्डन टैम्पल डिपोजिट्स एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
559.	9260	मैसर्स आईवी सिस्टम्स लिमिटेड
560.	9266	मैसर्स भल्ला फाईनेंशियल कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
561.	9270	मैसर्स अंशल क्रेडिट्स प्राईवेट लिमिटेड
562.	9273	मैसर्स टी के बी कनसोर्टियम टेलीविजनस प्राईवेट लिमिटेड
563.	9279	मैसर्स जे. पी. हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
564.	9276	मैसर्स आई बी इन्वेस्टमेंट एंड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
565.	9286	मैसर्स रॉयकोट हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
566.	9291	मैसर्स टैरेन बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
567.	9310	मैसर्स परफैक्ट फॉर्म्यूलेशन प्राईवेट लिमिटेड
568.	9313	मैसर्स जी एम डिपोजिट एंड एडवांसिस प्राईवेट लिमिटेड
569.	9314	मैसर्स असाही कम्पोनेंट्स लिमिटेड
570.	9371	मैसर्स सिरि केशगढ़ साहिब हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
571.	9323	मैसर्स पी एस डिपोजिट्स एंड एडवान्स लिमिटेड
572.	9331	मैसर्स अरू डिपोजिट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
573.	9341	मैसर्स भाग्य लक्ष्मी डिपोजिट्स एंड एडवांसिस प्राईवेट लिमिटेड
574.	9345	मैसर्स एवरसन लैबोरेट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
575.	9349	मैसर्स बी एस पी कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
576.	9350	मैसर्स जगदम्बे लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
577.	9351	मैसर्स भाग्य लक्ष्मी क्रेडिट एंड कमर्शियल डेवलपमेंट लिमिटेड
578.	9365	मैसर्स पंजाब ग्रीन प्लान्टेशन लिमिटेड
579.	9364	मैसर्स संदीप हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
580.	9367	मैसर्स गोविंद आयरन मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
581.	9373	मैसर्स किट्टी डिपोजिट्स प्राईवेट लिमिटेड
582.	9374	मैसर्स श्री हरकिशन हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
583.	9389	मैसर्स एस जी डिपोजिट एंड एडवांसिस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
584.	9387	मैसर्स पंजाब एलायन्स प्राईवेट लिमिटेड
585.	9392	मैसर्स नगमा लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
586.	9396	मैसर्स अजीत हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
587.	9404	मैसर्स लयालपुर हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
588.	9414	मैसर्स सुखराज चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड
589.	9416	मैसर्स पी एस आई हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
590.	9417	मैसर्स एकता डिपोजिट्स एंड एडवांसिस प्राईवेट लिमिटेड
591.	9418	मैसर्स मनज्योत लीजिंग एंड फाईनेंस कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
592.	9421	मैसर्स बद्री प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड
593.	9425	मैसर्स एवरशाइन लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
594.	9426	मैसर्स एन पी इंडस्ट्रीज लिमिटेड
595.	9427	मैसर्स एस पी निटवीयर्स प्राईवेट लिमिटेड
596.	9431	मैसर्स जी. टी. हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
597.	9423	मैसर्स हिम्मत जनरल फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड
598.	9437	मैसर्स उत्तम एग्रो मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
599.	9452	मैसर्स विजय जीवांशा डिपोजिट्स एंड एडवांसिस प्राईवेट लिमिटेड
600.	9447	मैसर्स ग्रीनवे जनरल हायर परचेज लिमिटेड
601.	9457	मैसर्स सरदार डिपोजिट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इंडिया लिमिटेड
602.	9460	मैसर्स जी पी डिपोजिट्स एंड एडवांसिस प्राईवेट लिमिटेड
603.	9474	मैसर्स भूपिंद्रा हिंजेस प्राईवेट लिमिटेड
604.	9481	मैसर्स क्रिस्टल मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड
605.	9485	मैसर्स सोगो फाईनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
606.	9496	मैसर्स रुधरू फाईनेंस कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
607.	9507	मैसर्स लखानी डिपोजिट्स एंड एडवांसिस प्राईवेट लिमिटेड
608.	9509	मैसर्स शिवा क्रेडिट्स प्राईवेट लिमिटेड
609.	9508	मैसर्स जैरथ वूलन मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
610.	9510	मैसर्स संगरूर टेक्सटाईल्स लिमिटेड
611.	9512	मैसर्स एस. आर. एडवांसिस प्राईवेट लिमिटेड
612.	9519	मैसर्स जवांदा हायर परचेज एंड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
615.	9522	मैसर्स ब्राडशाह फाईनेस एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	644.	9660	मैसर्स मोनपोर्ट इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड
614.	9525	मैसर्स मक्खु फाईनेस एंड इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड	645.	9661	मैसर्स सिमरन हायर परचेज़ एंड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
615.	9532	मैसर्स जवाहर डिपोजिट्स एंड एडवांसिस लिमिटेड	646.	9662	मैसर्स स्टैंडर्ड फोरेस्ट लिमिटेड
616.	9546	मैसर्स सांझ हायर परचेज़ एंड फाईनेस प्राईवेट लिमिटेड	647.	9667	मैसर्स हरपुन इनोवेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
617.	9544	मैसर्स अल-शाह एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	648.	9672	मैसर्स ओलम्पिक लैंडर्स प्राईवेट लिमिटेड
618.	9552	मैसर्स साहिल इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	649.	9677	मैसर्स जे सन्स लैंडर ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
619.	9561	मैसर्स किरपाल कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	650.	9680	मैसर्स विश्वास डिपोजिट्स एंड एडवांसिस प्राईवेट लिमिटेड
620.	9562	मैसर्स पारस डिपोजिट्स एंड एडवांसिस (इंडिया) लिमिटेड	651.	9683	मैसर्स ए. एम. फाईनेशियर्स प्राईवेट लिमिटेड
621.	9563	मैसर्स अकाल लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड	652.	9684	मैसर्स एस जी पोल्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड
622.	9566	मैसर्स राहोन फाईनेस एंड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड	653.	9736	मैसर्स धरती डिपोजिट्स एंड एडवांसिस लिमिटेड
623.	9568	मैसर्स बी. के. क्रेडिट्स प्राईवेट लिमिटेड	654.	9692	मैसर्स जगसन्स बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
624.	9585	मैसर्स गुराम फाईनेस प्राईवेट लिमिटेड	655.	9693	मैसर्स संगम बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
625.	9590	मैसर्स विनायका ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड	656.	9702	मैसर्स कान्तस डिपोजिट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
626.	9586	मैसर्स लायबल ट्रायो फाईनेस कंपनी प्राईवेट लिमिटेड	657.	9708	मैसर्स हितेश स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
627.	9587	मैसर्स पंजाब टैक्नोफैब प्राईवेट लिमिटेड	658.	9709	मैसर्स जगन हायर परचेज़ एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
628.	9597	मैसर्स नीति ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड	659.	9712	मैसर्स प्रीसाईस सरवेज़ प्राईवेट लिमिटेड
629.	9599	मैसर्स एक्स-सर्विसमैन इंडस्ट्रियल सिन्क्रोरीटी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	660.	9718	मैसर्स इफिशिएंट डिपोजिट्स एंड एडवांसिस इंडिया लिमिटेड
630.	9603	मैसर्स जीत लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड	661.	9720	मैसर्स हरशन लीजिंग एंड फाईनेस प्राईवेट लिमिटेड
631.	9610	मैसर्स अमन एडवांसिस इंडिया लिमिटेड	662.	9722	मैसर्स विश्व डिपोजिट्स एंड एडवांसिस (इंडिया) लिमिटेड
632.	9615	मैसर्स लिबर्टी क्रेडिट्स इंडिया लिमिटेड	663.	9724	मैसर्स मुलतानी हायर परचेज़ कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
633.	9618	मैसर्स जिम्प इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	664.	9727	मैसर्स सतलुज एडवांसिस एंड डिपोजिट्स लिमिटेड
634.	9619	मैसर्स ब्यास डिपोजिट्स एंड एडवान्स लिमिटेड	665.	9732	मैसर्स लक्की फोरेस्ट कंपनी लिमिटेड
635.	9620	मैसर्स यूनाइटड इंडिया एडवांसिस लिमिटेड	666.	9731	मैसर्स हिंदुस्तान बोर्ड्स लिमिटेड
636.	9630	मैसर्स जीएके डिपोजिट्स एंड एडवांसिस इंडिया लिमिटेड	667.	9735	मैसर्स गुरुकृपा एग्रो फ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड
637.	9634	मैसर्स सनराईस फैंब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड	668.	9744	मैसर्स प्रीत मार्केटियर्स प्राईवेट लिमिटेड
638.	9638	मैसर्स ग्रोवर वर्मा डिपोजिट्स एंड एडवांसिस लिमिटेड	669.	9749	मैसर्स सचदेवा हायर परचेज़ प्राईवेट लिमिटेड
639.	9640	मैसर्स वज्र हायर परचेज़ प्राईवेट लिमिटेड	670.	9752	मैसर्स तरन तारन फाईनेस एंड इन्वेस्टमेंट (इंडिया) लिमिटेड
640.	9649	मैसर्स इन्टरनेशनल ग्रीन फोरेस्ट्स लिमिटेड			
641.	9652	मैसर्स पाईन व्यू हायर परचेज़ प्राईवेट लिमिटेड			
642.	9654	मैसर्स जे. पी. टी. लीजिंग एंड फाईनेस प्राईवेट लिमिटेड			
643.	9656	मैसर्स पॉलसन डीहाईड्रेटिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3
671.	9753	मैसर्स माझा डिपोजिट्स एंड एडवांसिस इंडिया लिमिटेड
672.	9754	मैसर्स तोपैज फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड
673.	9764	मैसर्स सोहल डिपोजिट्स एंड एडवांसिस प्राईवेट लिमिटेड
674.	9766	मैसर्स स्पर रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
675.	9773	मैसर्स रहमत फाईनेंस इंडिया लिमिटेड
676.	9774	मैसर्स जे डी डिपोजिट्स एंड एडवांसिस प्राईवेट लिमिटेड
677.	9778	मैसर्स ए आर फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड
678.	9779	मैसर्स सुखमनी लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
679.	9782	मैसर्स एटलस क्लोदिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
680.	9784	मैसर्स एच. एच. हैचरीज़ प्राईवेट लिमिटेड
681.	9788	मैसर्स एच एम जे ब्यास पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड
682.	9801	मैसर्स शान-ना पंजाब डिपोजिट्स एंड एडवांसिस प्राईवेट लिमिटेड
683.	9805	मैसर्स गिल्को लीजिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
684.	9429	मैसर्स एम एस पैरासोल सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
685.	9806	मैसर्स नामदेव फर्टीलाइज़र्स प्राईवेट लिमिटेड
686.	9811	मैसर्स नॉर्दर्न इंडिया हाऊसिंग लिमिटेड
687.	9820	मैसर्स ज़ील फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड
688.	9828	मैसर्स नरूला हायर परचेज़ प्राईवेट लिमिटेड
689.	9830	मैसर्स जी एस साहनी डिपोजिट्स एंड फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड
690.	9831	मैसर्स विकास डिपोजिट्स एंड एडवांसिस (इंडिया) लिमिटेड
691.	9833	मैसर्स वर्ल्ड लीजिंग लिमिटेड
692.	9834	मैसर्स पनीएर फाईनेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड
693.	9849	मैसर्स प्रकाश डिपोजिट्स एंड एडवांसिस कंपनी लिमिटेड
694.	9854	मैसर्स सिमरन फाईनेंस कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
695.	9858	मैसर्स लीडर मैटल्स एंड एलॉयज़ प्राईवेट लिमिटेड
696.	9863	मैसर्स ए जे सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
697.	9866	मैसर्स श्री स्टार डिपोजिट्स एंड एडवांसिस इंडिया लिमिटेड

1	2	3
698.	9868	मैसर्स मून लैण्ड डिपोजिट्स एंड एडवांसिस प्राईवेट लिमिटेड
699.	9869	मैसर्स ग्लोरियस डिपोजिट्स एंड एडवांसिस लिमिटेड
700.	9871	मैसर्स संघू लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
701.	9874	मैसर्स सारा डिपोजिट्स एंड एडवांसिस प्राईवेट लिमिटेड
702.	9875	मैसर्स सिंध डिपोजिट्स एंड एडवांसिस इंडिया लिमिटेड
703.	9893	मैसर्स स्टेलर सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
704.	9892	मैसर्स एवरेस्ट फोम प्राईवेट लिमिटेड
705.	9898	मैसर्स हनीवेल ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
706.	9903	मैसर्स इंडो फाइन फिलर्स प्राईवेट लिमिटेड
707.	9906	मैसर्स जालंधर फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
708.	9918	मैसर्स राटिया डिपोजिट्स एंड एडवांसिस कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
709.	9922	मैसर्स हरजेश्वर हायर परचेज़ प्राईवेट लिमिटेड
710.	9923	मैसर्स बांका एस्टेट्स इंडिया लिमिटेड
711.	9932	मैसर्स वरेन फाईनेंशियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
712.	9935	मैसर्स उधम हायर परचेज़ प्राईवेट लिमिटेड
713.	9942	मैसर्स धनकोश डिपोजिट्स प्राईवेट लिमिटेड
714.	9960	मैसर्स धरती हायर परचेज़ एंड लीजिंग कंपनी लिमिटेड
715.	9961	मैसर्स एल्पी फाईनेंस लिमिटेड
716.	9964	मैसर्स एस आर कार्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
717.	9965	मैसर्स ग्रीन लैण्ड डिपोजिट्स एंड एडवांसिस लिमिटेड
718.	9967	मैसर्स एस आर नायलॉन्स प्राईवेट लिमिटेड
719.	9957	मैसर्स नागोके फाईनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (इंडिया) लिमिटेड
720.	9971	मैसर्स मिथला फोरेस्ट इंडिया लिमिटेड
721.	9969	मैसर्स यूबी-पंजाब डिस्टिलरीज़ लिमिटेड
722.	9977	मैसर्स ज़रैत एडवांसिस एंड डिपोजिट्स लिमिटेड
723.	9972	मैसर्स मेरीगोल्ड मोटर एडवांसिस इंडिया लिमिटेड
724.	9976	मैसर्स सरबत फाईनेंस एंड लीजिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
725.	9979	मैसर्स सतलुज हायर परचेज़ प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
726.	9983	मैसर्स भुल्लर फाईनेस एंड इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड
727.	9985	मैसर्स अजनाला फाईनेस एंड इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड
728.	9987	मैसर्स सुरेखा ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
729.	9988	मैसर्स एसएमटी लीजिंग कंपनी लिमिटेड
730.	9994	मैसर्स मुरारी टेक्सटाईल्स मशीनरीज़ प्राईवेट लिमिटेड
731.	9996	मैसर्स पेट्रीओट फाईनेस एंड एग्रो इंडिया लिमिटेड
732.	10002	मैसर्स सरोमनी इन्वेस्टमेंट लीजिंग हाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड
733.	10008	मैसर्स पेप्सु एग्रो प्राईवेट लिमिटेड
734.	10009	मैसर्स लाखियान फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
735.	10025	मैसर्स मॉडर्न डिपोजिट्स एंड बिल्डर्स कंपनी लिमिटेड
736.	10026	मैसर्स सुलतान विंड हायर परचेज़ एंड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
737.	10028	मैसर्स नोनिहाल फोरजिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
738.	10029	मैसर्स पॉल टैनरीज़ प्राईवेट लिमिटेड
739.	10032	मैसर्स मुक्तिसर डिपोजिट्स एंड एडवांसिस प्राईवेट लिमिटेड
740.	10033	मैसर्स जट्ट फाईनेस एंड इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड
741.	10040	मैसर्स भरज फाईनेस प्राईवेट लिमिटेड
742.	10041	मैसर्स माल्वा चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
743.	10035	मैसर्स अमृत हैल्थ एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
744.	10044	मैसर्स राजेश्वरी डिपोजिट्स एंड एडवांसिस प्राईवेट लिमिटेड
745.	10047	मैसर्स रोजगार फाईनेस इंडिया लिमिटेड

राज सिंह

रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज़

पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

पटना, दिनांक 28 दिसम्बर 2011

सं. आर.ओ.सी./पैट/560(3)/7713--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	011007	मैसर्स लार्ड बुद्धा मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
2.	011008	मैसर्स पारामाउण्ट सक्सेस फ़ाईंट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
3.	010995	मैसर्स हेरा होम्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	010985	मैसर्स निम्बस सर्विसेस एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
5.	010986	मैसर्स ट्रीपास फर्मा प्राईवेट लिमिटेड
6.	010982	मैसर्स लीला एजुकेशनल सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
7.	010977	मैसर्स अरुनिमय कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
8.	010970	मैसर्स अगहारा कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
9.	010968	मैसर्स हुसैन एण्ड कम्पनी कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
10.	010943	मैसर्स श्रीमैक्स फर्मा प्राईवेट लिमिटेड
11.	010944	मैसर्स डाउन सॉफ्टओवरस्काई प्राईवेट लिमिटेड
12.	010938	मैसर्स देवदूत कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
13.	010935	मैसर्स अंकित एण्ड अर्पित भारद्वाज कम्प्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
14.	010930	मैसर्स रैडिक्स रेमेडीज़ प्राईवेट लिमिटेड
15.	010926	मैसर्स कौशल जनेक्स टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड
16.	010927	मैसर्स स्काई ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
17.	010916	मैसर्स जेहन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
18.	010917	मैसर्स मानस इन्फोरमेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	010909	मैसर्स इस्टर्न फर्मास्युटिकल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
20.	010910	मैसर्स इन्डयोर लेबोरेट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड
21.	010902	मैसर्स चीतान्व कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
22.	010892	मैसर्स रुद्रा मेडीकेम प्राईवेट लिमिटेड
23.	010891	मैसर्स प्लूटो फर्मा प्राईवेट लिमिटेड
24.	010882	मैसर्स चन्दन देव कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
25.	010883	मैसर्स विस्व मोहिनी कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
26.	010884	मैसर्स राजेश कुमार सर्वेयर्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	010881	मैसर्स बोधगया इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	010873	मैसर्स लक्ष्मण लीला एण्ड सन्स ऑयल्स एण्ड इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
29.	010874	मैसर्स जय मां भुवनेश्वरी ऑयरन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
30.	010865	मैसर्स जयश्री मेडिलैब्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	010864	मैसर्स श्री लक्ष्मीपति स्टील प्राईवेट लिमिटेड
32.	010854	मैसर्स एक्सीओम प्लस सर्विसेस एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
33.	010850	मैसर्स हर्स ज्वेलर्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	010845	मैसर्स श्रीजन फ़ोजन प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	010846	मैसर्स ओम जयराम इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
36.	010840	मैसर्स सुरेन्द्र कुमार सिंह कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
37.	010836	मैसर्स फोयनिकस इन्फोवेज प्राईवेट लिमिटेड
38.	010833	मैसर्स तन्या मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
39.	010828	मैसर्स राजेश प्रमोद कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	010829	मैसर्स त्रिगौरी शुगर मिल प्राईवेट लिमिटेड
41.	010830	मैसर्स नेहा कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
42.	010819	मैसर्स रिलैक्स मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
43.	010815	मैसर्स ओम आइडियल लाइफ मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
44.	010806	मैसर्स उद्यान एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड
45.	010799	मैसर्स शिव शक्ति आयरन एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड
46.	010791	मैसर्स श्रीजन सेल्स एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
47.	010785	मैसर्स कन्हैया स्याम लाजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
48.	010740	मैसर्स इल्को फर्मास्युटिल्स प्राईवेट लिमिटेड
49.	010770	मैसर्स रिपोज मार्केटिंग एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
50.	010765	मैसर्स गुरुकुल आयुर्वेद प्राईवेट लिमिटेड
51.	010750	मैसर्स शील माला कन्सट्रक्शन एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
52.	010748	मैसर्स अभ्युदय बिल्डटेक प्राईवेट लिमिटेड
53.	010746	मैसर्स अल्मी बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
54.	010743	मैसर्स सागर इंजीनियरिंग एण्ड हाऊसिंग कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
55.	010741	मैसर्स पल्स विजन प्राईवेट लिमिटेड
56.	010728	मैसर्स अल्बेट्रोस लेबोरेट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
57.	010721	मैसर्स गुरु महेश बाबा कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड

ओ. पी. शर्मा
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
बिहार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

पटना, दिनांक 29 दिसम्बर 2011

सं. आर.ओ.सी./पैट/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :-

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	007636	मैसर्स बेस्ट प्लान्टेशन प्राईवेट लिमिटेड
2.	007629	मैसर्स बर्ल इंडिया एक्वा एण्ड टेकफार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	007618	मैसर्स लोयेसी फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड
4.	007611	मैसर्स प्रोग्रेसिव रेलवे कन्सट्रक्शन लिमिटेड
5.	007608	मैसर्स नगर विकास इकोनोमी लिमिटेड
6.	007604	मैसर्स अपूर्व प्लान्टेशन लिमिटेड
7.	007598	मैसर्स अवतार गोगाजी कम्पनी ऑफ फाईनेन्स लिमिटेड
8.	007600	मैसर्स मां अम्बे सेविंग्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
9.	007590	मैसर्स क्लासिक इंडिया इकोइनवेस्ट लिमिटेड
10.	007586	मैसर्स जोसेफ क्रेडिट एण्ड कॉमर्शियल कम्पनी इंडिया लिमिटेड

1	2	3	क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
11.	007572	मैसर्स वीनर ट्रेडिंग (इंडिया) लिमिटेड	1.	005595	मैसर्स जनता सिव्युरिटी एण्ड जॉब सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
12.	007573	मैसर्स इडेन इकोनॉमी इंडिया लिमिटेड	2.	005589	मैसर्स जम जम एग्रो प्राईवेट लिमिटेड
13.	007566	मैसर्स सुभम प्लान्टेशन्स इंडिया लिमिटेड	3.	005575	मैसर्स शर्मा ग्लास इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
14.	007559	मैसर्स कस्यप इंटरप्राइजेज लिमिटेड	4.	005552	मैसर्स बिमला इलेक्ट्रोस्टील इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
15.	007553	मैसर्स धनाद्वीप फीनवेस्ट इंडिया लिमिटेड	5.	005548	मैसर्स सिन्हा होम्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	007550	मैसर्स श्रीकृष्णा फिल्मस फाईनेन्स एण्ड हायर परचेज कम्पनी लिमिटेड	6.	005532	मैसर्स मुकेश मसीन बीज प्राईवेट लिमिटेड
17.	007541	मैसर्स सखी सेविंग्स लिमिटेड	7.	005523	मैसर्स स्पेलन्डीड डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	007539	मैसर्स नटराज सेविंग्स लिमिटेड	8.	005525	मैसर्स गुडमैनपालीमर्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	007533	मैसर्स सावन फार्मास्यूटिकल्स इंडिया लिमिटेड	9.	005495	मैसर्स कोलौना मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
20.	007532	मैसर्स एलाइट प्लान्टेशन्स लिमिटेड	10.	005484	मैसर्स पूनम इम्पेक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
21.	007507	मैसर्स मोटो कौटिल फाईनेन्स एण्ड प्लान्टेशन्स लिमिटेड	11.	005486	मैसर्स नन्दनी टेक्नोकॉम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
22.	007477	मैसर्स घोसवर इंडिया ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड	12.	005481	मैसर्स साथी लैंड डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	007454	मैसर्स बर्ल इंडिया फोरेस्ट एण्ड फिसरीज लिमिटेड	13.	005480	मैसर्स तिरुपति फूड्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
24.	007455	मैसर्स रस्तोगी प्लान्टेशन्स लिमिटेड	14.	005476	मैसर्स कुमार हाउसिंग प्राईवेट लिमिटेड
25.	007446	मैसर्स संगम प्लान्टेशन एण्ड डवलपर्स लिमिटेड	15.	005547	मैसर्स कवान्य इण्डस्ट्रीयल कन्सलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
26.	007425	मैसर्स लोक सेवा कॉमर्शियल एण्ड प्लान्टेशन इंडिया लिमिटेड			
27.	007426	मैसर्स पराची इकोनॉमी एण्ड प्लान्टेशन इंडिया लिमिटेड			
28.	007420	मैसर्स होरीजोन प्लान्टेशन्स (इंडिया) लिमिटेड			
29.	007395	मैसर्स सोनेक्स सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड			
30.	007392	मैसर्स बोस कार्ड इंडिया लिमिटेड			

ओ. पी. शर्मा
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
बिहार

ओ. पी. शर्मा
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
बिहार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में
पटना, दिनांक 19 जनवरी 2011

सं. आर.ओ.सी./पैट/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मैक्सी रिज़ार्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पणजी-403001, दिनांक 18 जनवरी 2012

सं. 560(3)/1737--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मैक्सी रिज़ार्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया

तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स चैस रियल एस्टेट डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

संजय कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
बैंगलूर, दिनांक 18 जनवरी 2012

सं. कं.सं./क.र.ब./एमएम/560(3)/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीस दिन के अवसान पर निम्नलिखित कंपनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1.	38948	मैसर्स सीरा डिजाइन ऑटोमेशन प्राईवेट लिमिटेड
3.	47363	मैसर्स समीरा ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
2.	46143	मैसर्स यूरोमार्केट कंसलट सर्विस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड

गीता महालक्ष्मी के.
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में
बैंगलूर, दिनांक 18 जनवरी 2012

सं. कं.र/एसीए-21/टीए-एमएम/560(5)/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	42884	मैसर्स यलोबायर आर्किटेक्चर कंसल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
2.	48743	मैसर्स केएन (बैंगलोर सेज) प्राईवेट लिमिटेड
3.	39670	मैसर्स इनोड्स साल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड
4.	19470	मैसर्स जाला कम्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
5.	12356	मैसर्स यूनिचेनल्स कंसल्टन्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
6.	51811	मैसर्स ग्लीवर डेनियल्स रिसर्च सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड
7.	51039	मैसर्स परिग्ना टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
8.	48858	मैसर्स इम्बरिन वूमेन्स एम्पावरमेंट सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड
9.	40170	मैसर्स सेंड प्रोफाइल्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
10.	40504	मैसर्स मेप टेक्नॉलाजी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
11.	52940	मैसर्स हेलियस फोटोवॉल्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	45884	मैसर्स बायो जेन कोस्टल इन्ग्रेडियेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	8236	मैसर्स एक्वा इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	33958	मैसर्स एसबी प्लानर्स एण्ड डिजाइनर्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	42923	मैसर्स केरिनोव नेटवर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	46774	मैसर्स एएसवी विलॉस एंड प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	47352	मैसर्स म्यूजिकइंडिया आनलाईन. कॉम प्राईवेट लिमिटेड
18.	47271	मैसर्स बीरा हाइड्रो वेंचर्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	21075	मैसर्स द अयेर मनीस इन्वेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग लिमिटेड
20.	14231	मैसर्स दावना सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
21.	51694	मैसर्स एक्सलेब टेक्नॉलॉजी एण्ड सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड

गीता महालक्ष्मी के.
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स काम्दान अडवैसरी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नै-600006, दिनांक 18 जनवरी 2012

सं. 46208 से 46827 तक/560 (5)/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स काम्दान अडवैसरी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

के. लता परिमलवदना
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अंडमान एवं निकोबार द्विपपुंज

तमिलनाडु, अंडमान एवं निकोबार द्विपपुंज

तमिलनाडु, अंडमान एवं निकोबार द्विपपुंज

लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

के. लता परिमलवदना

उप कम्पनी रजिस्ट्रार

उप कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अंडमान एवं निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एस. पी. के. चिट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नै-600006, दिनांक 18 जनवरी 2012

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण

के. लता परिमलवदना

उप कम्पनी रजिस्ट्रार

तमिलनाडु, अंडमान एवं निकोबार द्विपपंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स आथिसक्ती स्यरिटस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नै-600006, दिनांक 18 जनवरी 2012

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आथिसक्ती स्यूरिट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

के. लता परिमलवदना
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
न एवं निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स नोरिडा पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नै-600006, दिनांक 18 जनवरी 2012

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नोरिडा पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

के. लता परिमलवदना

उप कम्पनी रजिस्ट्रार

तमिलनाडु, अंडमान एवं निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सिन्ध साईंटीफिक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नै-600006, दिनांक 18 जनवरी 2012

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सिन्धु साइंटीफिक प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

के. लता परिमलवदना
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
न एवं निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अनिराज कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नै-600006, दिनांक 18 जनवरी 2012

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अनिराज कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

के. लता परिमलवदना

उप कम्पनी रजिस्टार

तमिलनाडु, अंडमान एवं निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मंगलक्ष्मी ट्रेवलर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नै-600006, दिनांक 18 जनवरी 2012

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसार
में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मंगलक्ष्मी टैक्स्टाइल् प्राइवेट

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मेहता स्मेल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नै-600006, दिनांक 1 जनवरी 2012

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मेहता स्मेल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

के. लता परिमलवदना
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अंडमान एवं निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स साऊथ ईस्ट फाईनैस को. लिमिटेड के विषय में

चेन्नै-600006, दिनांक 1 जनवरी 2012

सं. 08217/560 (3)/2012--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स साऊथ ईस्ट फाईनैस को. प्राईवेट लिमिटेड का नाम उसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

के. लता परिमलवदना
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अंडमान एवं निकोबार द्विपपुंज

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi-110023, the 12th January 2012

No. 2/38/10-Admn./161719—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri Philip Bara, Under Secretary in the Commission as Officer on Special Duty on ad hoc basis in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from 9th January, 2012 for a period of twelve months or until further orders, whichever is earlier.

2. His appointment to the post of Officer on Special Duty is purely on ad hoc basis under proviso to Rule 4(1)(b) of the CVC (Staff) Rules, 2007 and will not bestow upon him any claim for regular appointment.

SURJIT SINGH
Director (Admn.)

for Central Vigilance Commissioner

No. 2/38/10-Admn./161721—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri R. N. Nayak, Under Secretary in the Commission as Officer on Special Duty on ad hoc basis in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from 9th January, 2012 for a period of twelve months or until further orders, whichever is earlier.

2. His appointment to the post of Officer on Special Duty is purely on ad hoc basis under proviso to Rule 4(1)(b) of the CVC (Staff) Rules, 2007 and will not bestow upon him any claim for regular appointment.

SURJIT SINGH
Director (Admn.)
for Central Vigilance Commissioner

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DIRECTORATE GENERAL, CENTRAL RESERVE
POLICE FORCE)

New Delhi-110003, the 11th January 2012

No. O-II-3871/11-Pers.(Mos)—On his voluntary retirement from service Dr. Pramod Kumar, DIG (Medical) (IRLA-8637), CH, CRPF, Imphal (Manipur), made over charge of his post from the forenoon of 01.11.2011. Accordingly, his name deleted from the strength of the Force from 01.11.2011 (FN).

R. N. MISRA
DIG (Pers.)

DIRECTORATE OF COORDINATION
(POLICE WIRELESS)

New Delhi-3, the 21st December 2011

No. A-17011/06(D-52)/2011-Admn.-I—Shri Dharam Pal Vasisht, Extra Assistant Director (Cy) of this Directorate has

retired from Government Service on attaining the age of superannuation in the afternoon of 30.11.2011.

P. K. SINGHAL
Director

No. A-17011/07(P-57)/2011-Admn.-I—Shri Pankaj Srivastava, Extra Assistant Director (Cy) of this Directorate has retired from Government Service on attaining the age of superannuation in the afternoon of 30.11.2011.

P. K. SINGHAL
Director

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (CIVIL
AUDIT) ODISHA

Bhubaneswar, the 17th January 2012

No. Admn.(CA)17-2/Vol.-IV/Sr.-AO/2342—In pursuance of OOC No. 990 dated 30.12.2011 communicated vide Memo No. Admn. (CA)17-2/Vol.-IV(Sr.-AO)/2153 dated : 30.12.2011 the following Audit Officers on promotion have assumed charge as Sr. Audit Officer in Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with corresponding Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from the dates indicated against each :—

Sl. No.	Name of the officer	Date of assuming charge as Sr. AO
	S/Shri/Smt.	
1.	Bijaya Kumar Dash	02.01.2012 (FN)
2.	Pramod Kumar Nayak-II	02.01.2012 (FN)
3.	Damodar Mishra	02.01.2012 (FN)
4.	Pravat Kumar Sahoo	02.01.2012 (FN)
5.	R. V. Ramana	02.01.2012 (FN)
6.	Brundaban Sahoo-II	02.01.2012 (FN)
7.	Ch. Sachindra Kumar Das	02.01.2012 (FN)
8.	Lalatendu Samantray	02.01.2012 (FN)
9.	Ashok Kumar Mohanty	02.01.2012 (FN)
10.	Bhimasen Behera	02.01.2012 (FN)
11.	Manindra Nath Bawali	02.01.2012 (FN)
12.	Bimal Chandra Dasmohapatra	02.01.2012 (FN)
13.	Tapan Kumar Hore	02.01.2012 (FN)

R. K. DAS
Sr. Audit Officer/Admn. (CA)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(A&E) ANDHRA PRADESH

Hyderabad-500004, the 19th January 2012

No. Admn.-I/A&E/I/4-39/2011-2012/27078—The Principal Accountant General (A&E), A.P., Hyderabad is pleased to

promote the under mentioned Accounts Officers to officiate as Sr. Accounts Officers in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) with Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from the dates shown against their names :—

Sl. No.	Name	Date of assumption of Charge as Sr. A.O.
1.	S/Shri/Smt. M. Sri Hari	02.01.2012 (F.N.)
2.	Y. Shantha	02.01.2012 (F.N.)
3.	M. Santhi	02.01.2012 (F.N.)
4.	S. B. Nirmala	02.01.2012 (F.N.)
5.	S. Sudhakar	02.01.2012 (F.N.)
6.	M. Shanti Kumari	02.01.2012 (F.N.)
7.	K. Madhavi	02.01.2012 (F.N.)
8.	B. V. Sudarsana Rao	02.01.2012 (F.N.)
9.	Ch. Showraiah	02.01.2012 (F.N.)
10.	V. Uma Devi	02.01.2012 (F.N.)

The promotions ordered are without prejudice to the claims of their seniors, if any, and also subject to the result of the writ petitions pending in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court/Central Administrative Tribunal.

Sd/- ILLIGIBLE
Dy. Accountant General
(Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (CIVIL
AUDIT) ANDHRA PRADESH

Hyderabad-500004, the 13th January 2012

No. Admn.-I/Prom./8-132/2011-2012/82—Accountant General (Civil Audit), Andhra Pradesh, Hyderabad is pleased to promote the following Audit Officers (Civil) of this office to the cadre of “Senior Audit Officers (Civil)” in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the official	Office Order No. and date	Date of Assumption of charge
1	2	3	4
	(S/Sri/Smt./Ms.)		
1.	T. Siva Prasad	129/29.12.2011	02.01.2012
2.	J. Srinivasan	129/29.12.2011	02.01.2012
3.	J. V. S. Gangadhara Sastry	129/29.12.2011	02.01.2012
4.	V. N. R. Sudhakar	129/29.12.2011	02.01.2012

1	2	3	4
5.	T. Aruna	129/29.12.2011	02.01.2012
6.	N. V. V. Sainath Sarma	129/29.12.2011	02.01.2012
7.	Binod Bihari Behera	129/29.12.2011	02.01.2012
8.	N. Jaipal Reddy	129/29.12.2011	02.01.2012
9.	P. Jagadiswari	129/29.12.2011	02.01.2012

The above promotions are ordered without prejudice to the claims of their seniors, if any, and subject to the result of the Writ Petitions, if any, pending in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court of India/Central Administrative Tribunal etc.

The officers should exercise option for fixation of pay within one month from the date of their promotion in terms of Govt. of India, O.M. No. F.No. 1/1/2008-IC dated 13.09.2008.

ANITHA BALAKRISHNA
Sr. Dy. Accountant General
(Admn.)

MINISTRY OF TEXTILES
(OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER)

Mumbai-400020, the 1st November 2010

Sub : Classification of Posts as per the S.O. 946(E) dated 09.04.2009, notified in the Gazette of India Extraordinary and the O.M. No. 11012/7/2008-Estt. (A) dated 17.04.2009 of DOP&T.

No. 3(24)/2010/Estt.-I/1—In compliance to the instructions of DoP&T O.M. No. 11012/7/2008-Estt.(A) dated 17th April, 2009, based on the S.O. 946(E) dated 9th April, 2009 notified in the Gazette of India Extraordinary, the Competent Authority has accorded approval for classification of the following posts in this organization. Accordingly, these posts stand classified as mentioned at Column (4) below, based on their Pay Band and Grade Pay :—

Sl. No.	Name	Pre-revised Pay Scale and existing classification	Revised Pay Scale i.e. Pay Band and Grade Pay and classification thereto
1	2	3	4
1.	Assistant	Rs. 5,000-150-8,000/- Group 'C'	Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay Rs. 4,200/- in Pay Band-2 Group-B (Non-Gazetted)
2.	Protocol Assistant	—Do—	—Do—
3.	Stenographer Grade-II	—Do—	—Do—
4.	Computer Operator	—Do—	—Do—
5.	Junior Hindi Translator	—Do—	—Do—

1	2	3	4
6.	Expert Weaver	Rs. 5,000-150-8,000/- Group 'C'	Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay Rs. 4,200/- in Pay Band-2 Group-B (Non-Gazetted)
7.	Carpenter	Rs. 2,650-65-3,300-70-4,000/- Group 'D'	Rs. 5,200—20,200/- plus Grade Pay Rs. 1,800/- in Pay Band-1 Group-C
8.	Daftary	Rs. 2,610-60-2,910-65-3,300-70-4,000/- Group 'D'	—Do—
9.	Peon	Rs. 2,550-55-2,660-60-3,200/- Group 'D'	—Do—
10.	Chowkidar	—Do—	—Do—
11.	Hamal	—Do—	—Do—
12.	Fitter-Cum-Carpenter	—Do—	—Do—
13.	Weaver Helper	—Do—	—Do—
14.	Sweeper	—Do—	—Do—

S. BALARAJU
Jt. Textile Commissioner (P)

**MINISTRY OF MINES
(INDIAN BUREAU OF MINES)**

Nagpur, the 11th January 2012

No. A-19011/627/2011-Estt.-A—On the recommendation of the Union Public Service Commission the President is pleased to appoint Shri Prabhat Mishra, to the post Deputy Mineral Economist in Indian Bureau of Mines, Nagpur w.e.f. 27.12.2011 (F.N.).

S. DASGUPTA
Sr. Admn. Officer
for Controller General

No. A-19011/628/2011-Estt. A—On the recommendation of the Union Public Service Commission the President is pleased to appoint Shri Arun Kumar Ray, to the post of Deputy Mineral Economist in Indian Bureau of Mines, Nagpur w.e.f. 27.12.2011 (F.N.).

S. DASGUPTA
Senior Admn. Officer
For Controller General

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 18th January 2012

Ref : PD/7(14)/2010-R-IV/SO(C)/ETG/558—The President is pleased to appoint Shri Maruti Kashiram Kamble, Scientific

Officer/Engineer Grade 'SB' Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/- of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer Grade 'C' in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/-, in the same Research Centre with effect from the forenoon of July 1, 2011, in an officiating capacity until further orders.

SHAILAJA PRAKASAM
Dy. Establishment Officer

**DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
VARIABLE ENERGY CYCLOTRON CENTRE**

Kolkata-700 064, the 13th January 2012

No. VECC/prom (July)/2011/123—The President is pleased to appoint undermentioned Scientific Assistant of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata to the grade of Technical Officer/C in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100 (PB-3) + Grade-Pay of Rs. 5,400/- in the same Centre in an officiating capacity with effect from July 1, 2011 (FN) until further orders :—

Name	Present Post	P.B.+G.P.
Sh. Suman Kumar Guha	Scientific Assistant/E	Rs. 15,600—39,100/- (PB-3)+Rs. 5,400/-

NVSV PRASAD
Administrative Officer-III

Kolkata-700 064, the 18th January 2012

No. VECC/Appt./TSO/2011/173—The President of India is pleased to appoint the undermentioned Trainees to the post of Scientific Officer/C in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/- in Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata-700 064, with effect from the forenoon of September 01, 2011 in a temporary capacity, until further orders:—

Sl. No.	Name
1.	Shri Shantonu Sahoo
2.	Shri Sundeep Ghosh
3.	Shri Arindam Kumar Sikdar
4.	Shri Vikas Jain

DEBJIT GUPTA
Assistant Personnel Officer

**DIRECTORATE OF CONSTRUCTION, SERVICES AND
ESTATE MANAGEMENT**

Mumbai-400 094, the 16th January 2012

No. DCSEM/A/3(2226)/2011-Rectt./70—Director, Directorate of Construction, Services & Estate Management,

Department of Atomic Energy appoints Shri G. Srinivasan, Assistant Security Officer(B), BARC, Mumbai as Security Officer in this Directorate in the Pay Band-2 Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- from the forenoon of 26/12/2011 until further orders.

G. S. KARWADE
Administrative Officer-III

No. DCSEM/A/3(2227)/2011-Rectt./72—Director, Directorate of Construction, Services & Estate Management, Department of Atomic Energy appoints Shri E. M. Kandasamy, Assistant Security Officer(B), BARC, Mumbai as Security Officer in this Directorate in the Pay Band-2 Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- from the forenoon of 26/12/2011 until further orders.

G. S. KARWADE
Administrative Officer-III

ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR EXPLORATION AND RESEARCH

Hyderabad-500 016, the 11th January 2012

No. AMD-1/20/94-Rectt/120—Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Department of Atomic Energy, hereby appoints Shri G. Venu, Assistant Personnel Officer, (PB-2 : Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/-), Nuclear Fuel Complex, Hyderabad to officiate as Staff Relations Officer (PB-2 : Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/-) in Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Hyderabad with effect from the forenoon of 02/01/2012 until further orders.

P. MOHAN BABU
Chief Administrative & Accounts Officer

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110003, the 13th January 2012

No. A.32013/14/2009-E.II.—On the basis of recommendation made by the UPSC the President is pleased to appoint the following Assistant Director of (Air Safety), on their promotion to the post of Deputy Director (Air Safety) in the Office of the Director General of Civil Aviation, in PB-3, Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/-, on regular basis from the date mentioned against the name of each until further orders :—

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Shri S. K. Brahmane | 21.11.2011 (Forenoon) |
| 2. Shri K L Meena | 21.11.2011 (Forenoon) |
| 3. Shri M J Singh | 21.11.2011 (Forenoon) |

B. PATTNAIK
Dy. Director of Admn.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Mahabir Prasad and Co. Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd January 2012

No. 560(5)/2096—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mahabir Prasad and Co. Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Chandigarh, the 19th January 2012

No. RoC/560(5)/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	006502	M/s. Aarti Finance and Invstment Company Private Limited
2.	006512	M/s. Ayyangers Consortium Private Limited
3.	006513	M/s. Parbhat Finance and Investment Private Limited
4.	006516	M/s. North India Medicare Limited
5.	006517	M/s. United India General Fiance and Investments Limited
6.	006525	M/s. Oriental Dyeing Private Limited
7.	006521	M/s. Santosh Financial Consultants Private Limited
8.	006534	M/s. Sohal Hire Purchase and Finance Private Limited
9.	006532	M/s. United Financials and Investments Limited
10.	006553	M/s. Manav Seva Finance and Investment India Limited
11.	006571	M/s. Bansal Publishers and Stationers Private Limited
12.	006575	M/s. Punjab Industrial Threads Private Limited

1	2	3	1	2	3
13.	006583	M/s. Apollo Pharmacy Private Limited	43.	006698	M/s. K. Sons Hosiery Industries Private Limited
14.	006600	M/s. Rama Fertilisers Limited	44.	006701	M/s. Preet Palace Hotel and Restaurant Private Limited
15.	006606	M/s. Aulakh Recovery Claims Bureau Private Limited	45.	006724	M/s. Pooja Holdings Private Limited
16.	006608	M/s. Sethi Investments Private Limited	46.	006725	M/s. Empire Radiators Limited
17.	006607	M/s. S. N. Munjal Investments Private Limited	47.	006733	M/s. Baba Motor Hire Purchase Private Limited
18.	006618	M/s. Bhagwati Chem-Oils Private Limited	48.	006735	M/s. Sonu Financiers Private Limited
19.	006620	M/s. Punjab Oils and General Agro Private Limited	49.	006745	M/s. Super Standard Printing Machineries Private Limited
20.	006622	M/s. Gee and Bee Financiers Private Limited	50.	006741	M/s. Punjab Petro Fabrics Limited
21.	006623	M/s. Asian Motors Private Limited	51.	006748	M/s. Mittal Iron and Steel Products Private Limited
22.	006625	M/s. Yash Financiers Private Limited	52.	006754	M/s. Pacific Sea Foods Limited
23.	006628	M/s. Akash Hire Purchase Private Limited	53.	006766	M/s. Balwant Paper Moulding Private Limited
24.	006632	M/s. Kamla Spinning Mills Private Limited	54.	006776	M/s. Reliance Investment and Leasing Limited
25.	006635	M/s. Sidhu Textiles Private Limited	55.	006783	M/s. B V M Data Controls Private Limited
26.	006636	M/s. Sita Ram Shori Lal Private Limited	56.	006787	M/s. Nagpal Steels Limited
27.	006634	M/s. T C Ferro Cast Private Limited	57.	006790	M/s. Pindi Financiers Private Limited
28.	006647	M/s. Amarpreet Finance Limited	58.	006799	M/s. Guru Financers Private Limited
29.	006644	M/s. Evergreen Electronics Private Limited	59.	006804	M/s. United India Land Developers Private Limited
30.	006654	M/s. Steel Fab Private Limited	60.	006810	M/s. Sahai Color Lab Private Limited
31.	006656	M/s. Kapoor Spinning Mills Private Limited	61.	006812	M/s. Modern Agro Products Private Limited
32.	006657	M/s. Jagdamba Spinning Mills Private Limited	62.	006825	M/s. Indian Agro Chemical Industries Limited
33.	006659	M/s. Naunihal Finance and General Investment Private Limited	63.	006835	M/s. Bareilly Finance and Hire Purchase Private Limited
34.	006661	M/s. Jay Gee Finance and Investments Private Limited	64.	006861	M/s. Guru Nanak Investment and Hire Purchase Private Limited
35.	006664	M/s. Unique Steel Engineers Private Limited	65.	006868	M/s. Arbi Chemicals Punjab Limited
36.	006669	M/s. K D P Data Processing Private Limited	66.	006872	M/s. Saraswati Agro Chem India Private Limited
37.	006676	M/s. Unique Sales and Services Private Limited	67.	006877	M/s. Navyug Deposits Investors Private Limited
38.	006679	M/s. Sarvpriya Engineers Private Limited	68.	006884	M/s. Hemkunt Printers Private Limited
39.	006682	M/s. Unique Tubes Private Limited	69.	006883	M/s. Trinity Trading and Agencies Private Limited
40.	006687	M/s. Bhagat Finance Company Private Limited	70.	006893	M/s. Fearless Finance Company Limited
41.	006692	M/s. J. M. Woollen Spinning Mills Private Limited			
42.	006694	M/s. Osang Brothers Finance and Investment Private Limited			

1	2	3
71.	006896	M/s. K K Advertising Company Limited
72.	006899	M/s. D. R. Pharmaceuticals Private Limited
73.	006900	M/s. Golden Motor Hire Purchase Private Limited
74.	006915	M/s. Ratonal General Finance India Limited
75.	006912	M/s. H. G. S. Finance Private Limited
76.	006914	M/s. Max Poly Pipes Private Limited
77.	006920	M/s. Satguru Financiers India Private Limited
78.	006926	M/s. DBS Consultants Private Limited
79.	006934	M/s. H T S Investments Private Limited
80.	006936	M/s. Northern Hire Purchase Private Limited
81.	006935	M/s. Sahibjada Chit Fund Private Limited
82.	006943	M/s. Capricorn Mercantile Private Limited
83.	006946	M/s. Dikton Computers Private Limited
84.	006951	M/s. Pal Pipes India Private Limited
85.	006953	M/s. Krishna Impex Private Limited
86.	006962	M/s. Hemkund Chit Fund and Finance Private Limited
87.	006963	M/s. Sandeep Hotel Private Limited
88.	006964	M/s. Mansa Advances Private Limited
89.	006965	M/s. Neelam Cycles Private Limited
90.	006968	M/s. Hi-Tech Leatherware Private Limited
91.	006970	M/s. Polite General Finance Limited
92.	006983	M/s. Kalcharni Transport And Finance Private Limited
93.	006986	M/s. Jolly Finance and Hire Purchase Private Limited
94.	006985	M/s. Integrated Builders Private Limited
95.	007001	M/s. Progressive Paper and Board Mills Private Limited
96.	007003	M/s. Anand Lease and Advances Private Limited
97.	007012	M/s. Sky Ways Rubbers Private Limited
98.	007013	M/s. Khanna Agro Private Limited
99.	007020	M/s. Magus Pharmaceuticals Private Limited
100.	007024	M/s. Sazda Finance and Investment India Limited
101.	007028	M/s. Kohinoor Sales Private Limited

1	2	3
102.	007029	M/s. Golden Agro Energies Private Limited
103.	007037	M/s. Triveni Credits and General Company Private Limited
104.	007038	M/s. Swastik Roller Flour Mills Private Limited
105.	007039	M/s. Gaurav Lease and Investment Private Limited
106.	007041	M/s. Universal In-Cast Limited
107.	007050	M/s. Jaisingh India Private Limited
108.	007051	M/s. A. R. Impex Private Limited
109.	007045	M/s. India Farm Lands Private Limited
110.	007055	M/s. Amitoj Finance Private Limited
111.	007068	M/s. Suresh Roller and Flour Mills Private Limited
112.	007079	M/s. Ramsons Metals Private Limited
113.	007077	M/s. Hemkunt Plastics and Chemicals Private Limited
114.	007092	M/s. C S Modi Finance Private Limited
115.	007099	M/s. Pragati Towers Private Limited
116.	007102	M/s. JCB Farms Private Limited
117.	007103	M/s. Kamal Hire Purchase Private Limited
118.	007106	M/s. Sunflag Knitwears Private Limited
119.	007104	M/s. Khushal Finance and Hire Purchase Private Limited
120.	007108	M/s. Jako Fabrics Private Limited
121.	007110	M/s. Jagot Finance and Investment Private Limited
122.	007111	M/s. Bhupal Lease and Advances Private Limited
123.	007115	M/s. Ramana Farms and Finances Private Limited
124.	007117	M/s. J & K Micro Alloys and Castings Private Limited
125.	007123	M/s. Farmers Finance and Investment Co. Private Limited
126.	007125	M/s. Woolrich Wollen Mills Private Limited
127.	007138	M/s. Vikas Wire Products Private Limited
128.	007128	M/s. Vishal Cereals Private Limited
129.	007140	M/s. Mohartex Silk Mills Private Limited
130.	007144	M/s. Punjab Sacks Limited
131.	007152	M/s. Thapar Plastics Private Limited
132.	007153	M/s. Gajrat Hire Purchase Private Limited

1	2	3	1	2	3
133.	007154	M/s. Nurmahal Finance Private Limited	164.	007291	M/s. Vortex Pharmaceutical Private Limited
134.	007155	M/s. Danveer General Finance India Limited	165.	007301	M/s. Ess Aay Ess Finance and Investments Private Limited
135.	007158	M/s. Arneja Hire Purchase Private Limited	166.	007308	M/s. Star Dyeing and Finishing Mills Private Limited
136.	007172	M/s. Apna House General Finance and Investment Co. Limited	167.	007309	M/s. Shakti Processors Private Limited
137.	007176	M/s. Golden Leathers Private Limited	168.	007318	M/s. Sarb Electornics Private Limited
138.	007179	M/s. Anandpur Sahib Hire Purchase Private Limited	169.	007319	M/s. Ambica Rubber and Synthetics Mills Private Limited
139.	007189	M/s. ABP Data Media Associates Private Limited	170.	007334	M/s. Rohini Synthetics Private Limited
140.	007188	M/s. Parvati Chemicals Private Limited	171.	007341	M/s. Ludhiana Motor Finance Company Private Limited
141.	007193	M/s. Swarn Packages Private Limited	172.	007342	M/s. M. G. Leasing Private Limited
142.	007198	M/s. Elite Spinners Private Limited	173.	007349	M/s. Bravos General Finance Limited
143.	007205	M/s. Punjab Concrete Fabricators Private Limited	174.	007369	M/s. Malwa Electrocrafts Private Limited
144.	007208	M/s. Martian Foods Private Limited	175.	007377	M/s. Omsons Overseas Private Limited
145.	007210	M/s. Asian Tyres Private Limited	176.	007381	M/s. Jay Jay Appliances Private Limited
146.	007211	M/s. Vickson Finance Private Limited	177.	007384	M/s. Parshav Oil Mills Company Private Limited
147.	007217	M/s. Darar Hire Purchase Private Limited	178.	007379	M/s. Karwal Photonics Private Limited
148.	007218	M/s. Ekta Investment and Hire Purchase Private Limited	179.	007387	M/s. Airman Hire Purchase and Finance Private Limited
149.	007220	M/s. Samra Labs Private Limited	180.	007392	M/s. Zimidara Finance and Traders India Limited
150.	007225	M/s. Anand Roadways Private Limited	181.	007400	M/s. Ben Electronics Private Limited
151.	007232	M/s. Eee and Cee Construction Private Limited	182.	007401	M/s. Jin-sin Yarns Private Limited
152.	007234	M/s. Dashahri Fuel Co. Limited	183.	007415	M/s. Privilege Card Private Limited
153.	007242	M/s. Arien Biocoustics Private Limited	184.	007427	M/s. Urmar Finance Private Limited
154.	007243	M/s. Puneet Resorts Limited	185.	007430	M/s. Kays Finlease Private Limited
155.	007246	M/s. Sanbro Data Communication Systems Private Limited	186.	007447	M/s. Dharti Small Investments India Limited
156.	007253	M/s. Garg Refractories Private Limited	187.	007453	M/s. Friends Hire Purchase Private Limited
157.	007261	M/s. Royal Roller Flour and General Mills Private Limited	188.	007456	M/s. Surendra Hire Purchase Company Private Limited
158.	007264	M/s. Kulwant Financiers Private Limited	189.	007452	M/s. Channi Finance and Investments Limited
159.	007268	M/s. Harbhajan Finance Private Limited	190.	007464	M/s. New Moga Hire Purchase Private Limited
160.	007275	M/s. Koti Packers Private Limited	191.	007470	M/s. Veteran Technicons Private Limited
161.	007278	M/s. Braar Hire Purchase Private Limited	192.	007471	M/s. Jimmi Finance Private Limited
162.	007286	M/s. Preet Finance Private Limited	193.	007476	M/s. Koti Khanij Private Limited
163.	007292	M/s. Brothers Estate Holdings Private Limited	194.	007477	M/s. Koti Enterprises Private Limited

1	2	3
195.	007486	M/s. Govind Pratap Pipe Products Private Limited
196.	007487	M/s. B. K. Hire Purchase Private Limited
197.	007491	M/s. Indo Hire Purchase Private Limited
198.	007489	M/s. Mond Abrasives Private Limited
199.	007493	M/s. On Eyes General Finance Investment Limited
200.	007499	M/s. Ishwar Electronics Private Limited
201.	007498	M/s. Ravipal Knitcrafts Private Limited
202.	007503	M/s. Clarion Films Limited
203.	007507	M/s. Guru Nanak Textile Processors Private Limited
204.	007509	M/s. Neepan Consultants Private Limited
205.	007514	M/s. Roland Knitwear Private Limited
206.	007518	M/s. Jainson Acids Private Limited
207.	007521	M/s. Gill Sons Printing Company Private Limited
208.	007524	M/s. R. R. Silk Mills Private Limited
209.	007525	M/s. Allahabad General Investment India Limited
210.	007532	M/s. Sancho Pharmaceuticals Private Limited
211.	007537	M/s. Nabula Financial Services Limited
212.	007536	M/s. Edos Finance and Leasing Co. Private Limited
213.	007550	M/s. Punjab Colours and Pigments Private Limited
214.	007554	M/s. Jhankar Hotels Private Limited
215.	007556	M/s. R. R. Contractors Private Limited
216.	007561	M/s. Modern Planners Private Limited
217.	007570	M/s. Punjab Coil Springs Limited
218.	007574	M/s. Jagraon Exports Private Limited
219.	007575	M/s. Dewan Hire Purchase Private Limited
220.	007577	M/s. Vedam Leasing and Finance Co. Private Limited
221.	007585	M/s. Gill Pano Bus Service Private Limited
222.	007590	M/s. Karuna Holdings Private Limited
223.	007595	M/s. Sterling Tobacco Company Limited
224.	007598	M/s. Jalandhar Publications Private Limited
225.	007614	M/s. Sushrit Herbs Private Limited

1	2	3
226.	007617	M/s. Eagle Investments and Hire Purchase Private Limited
227.	007622	M/s. Walia Chemicals Private Limited
228.	007628	M/s. Pawar Exports Private Limited
229.	007631	M/s. Simpa Finance Co. Private Limited
230.	007637	M/s. T. D. Investment Co. Private Limited
231.	007640	M/s. Power Plastics and Chemicals Private Limited
232.	007645	M/s. Nippon Leatherits Private Limited
233.	007654	M/s. Juneja Hire Purchase and Investment Co. Private Limited
234.	007663	M/s. Lok Sewa Hire Purchase Private Limited
235.	007692	M/s. Mit Raj Packaging Private Limited
236.	007694	M/s. Sanora Electronics Private Limited
237.	007698	M/s. Hilton Instant Foods Private Limited
238.	007701	M/s. Luxmi Tele Tronics Private Limited
239.	007702	M/s. N. I. C. Finance India Limited
240.	007711	M/s. Guria Bus Service Private Limited
241.	007725	M/s. Kulduni Investment and Finance Limited
242.	007733	M/s. Anupam Hire Purchase Private Limited
243.	007734	M/s. Vishal Hire Purchase Private Limited
244.	007735	M/s. Champion Processor Private Limited
245.	007738	M/s. Diamond Tree Eucalyptus Limited
246.	007742	M/s. Zira Motor Finance Private Limited
247.	007750	M/s. Bedi Rubber Factory Private Limited
248.	007753	M/s. UMTC Lathes Private Limited
249.	007755	M/s. Ashoka Vanaspati Private Limited
250.	007763	M/s. Chamanda Steel Tubes Private Limited
251.	007766	M/s. Duplex General Finance and Investment India Limited
252.	007764	M/s. Chandigarh Heat Treatment Centre Private Limited
253.	007768	M/s. Ess Kay Hire Purchase Private Limited
254.	007773	M/s. Rays General Finance and Investment India Limited
255.	007774	M/s. Loknirman Housing and Hire Purchase India Limited
256.	007772	M/s. Bergen Associates Private Limited

1	2	3	1	2	3
257.	007782	M/s. Green Gold Meadows Holding Private Limited	290.	007940	M/s. Sweety Finance Private Limited
258.	007787	M/s. Lambardar Finance Co. Private Limited	291.	007948	M/s. Sran Finvest Private Limited
259.	007788	M/s. G. K. Auto Parts Private Limited	292.	007950	M/s. Khazana Investments Private Limited
260.	007794	M/s. Dainy Finance and Investment Private Limited	293.	007953	M/s. Hem Kund Lines Private Limited
261.	007796	M/s. Johny Sanjeev Hire Purchase Private Limited	294.	007954	M/s. Harkirat Holding Private Limited
262.	007805	M/s. Kaiser Sales Private Limited	295.	007999	M/s. Supreme Deposits and Advances Limited
263.	007804	M/s. Deepak Alloys and Strips Limited	296.	008002	M/s. Omni Typeset Press Private Limited
264.	007815	M/s. Padda Finance Private Limited	297.	008004	M/s. Ludhiana Printers Private Limited
265.	007837	M/s. HMV Transfigurations Private Limited	298.	008008	M/s. Patiala Pagesetters Private Limited
266.	007839	M/s. Raman Advances Private Limited	299.	008000	M/s. Gopi Flour Mill Private Limited
267.	007843	M/s. Reliance Cranes Private Limited	300.	008011	M/s. Ambala Printers Private Limited
268.	007844	M/s. Hadimba Resorts and Hotels Private Limited	301.	008012	M/s. Rajpura Typesetters Private Limited
269.	007860	M/s. Jay Jay Hire Purchase Private Limited	302.	008015	M/s. Phagwara Photoset Graphics Private Limited
270.	007862	M/s. Orsan Laboratories Private Limited	303.	008019	M/s. Ambala Publishing Private Limited
271.	007864	M/s. Perfect Tools Private Limited	304.	008022	M/s. United Rural Development Plans Limited
272.	007876	M/s. Rayum Leather Private Limited	305.	008021	M/s. H H Chit Fund and Finance Private Limited
273.	007881	M/s. GBM Hire Purchase Private Limited	306.	008036	M/s. Bakers Foods Private Limited
274.	007887	M/s. Sandy Sweet Chamber Limited	307.	008045	M/s. Samra Sea Foods Private Limited
275.	007899	M/s. Kay Cee Insulators Private Limited	308.	008050	M/s. Romesh Salto Chems India Private Limited
276.	007901	M/s. Red Rose Traders Private Limited	309.	008056	M/s. Veloce Pharmaceuticals Private Limited
277.	007904	M/s. Amit Hire Purchase Private Limited	310.	008071	M/s. A L Financiers Private Limited
278.	007911	M/s. Dowell Distilleries Private Limited	311.	008078	M/s. Gee Hermitage India Private Limited
279.	007916	M/s. Ashirwad Hospitals Private Limited	312.	008079	M/s. Saint Investments Private Limited
280.	007917	M/s. Anand Highways Private Limited	313.	008075	M/s. Arrow Impex Private Limited
281.	007920	M/s. Sona Condusters Private Limited	314.	008083	M/s. Mahajan Brothers Sports Private Limited
282.	007925	M/s. Chahal Finance Private Limited	315.	008087	M/s. Bachan Auto Hire Purchase Private Limited
283.	007927	M/s. Kanwar Hire Purchase Private Limited	316.	008091	M/s. Techno Wire Products Private Limited
284.	007931	M/s. Angadh Appliances Limited	317.	008097	M/s. SMT Estates Private Limited
285.	007932	M/s. Gift Cycles Private Limited	318.	008103	M/s. S. S. Poultry Farms Private Limited
286.	007933	M/s. Sutlej Knitwear Private Limited	319.	008099	M/s. Japson Rubbers Private Limited
287.	007930	M/s. Onkar Leasing Private Limited	320.	008110	M/s. Ladli Construction Co. Private Limited
288.	007936	M/s. Rama Pipes Private Limited			
289.	007938	M/s. Peppy Deposits and Investments Private Limited			

1	2	3
321.	008111	M/s. Indira Trading Private Limited
322.	008128	M/s. EPS Packs Private Limited
323.	008135	M/s. Gee Bee Aam Springs Private Limited
324.	008143	M/s. Orion Medichem Private Limited
325.	008147	M/s. M. B. Fastners Private Limited
326.	008157	M/s. Prince Metals Private Limited
327.	008163	M/s. Magni Chem Industries Private Limited
328.	008173	M/s. Northern Land Development and Housing Finance Limited
329.	008177	M/s. Kartar Timbers Private Limited
330.	008178	M/s. Preet Spinning and Dyeing Mills Private Limited
331.	008184	M/s. Amar (India) Tools Manufacturing Co. Private Limited
332.	008175	M/s. Aster Engineering Products Private Limited
333.	008172	M/s. Sehgal Sons Medicin Private Limited
334.	008185	M/s. Classic Surveyors Private Limited
335.	008192	M/s. Furpile Exports Limited
336.	008197	M/s. Makkar Rims India Private Limited
337.	008199	M/s. GSA Finance and Investments Private Limited
338.	008230	M/s. Nanda Medicine Centre Private Limited
339.	008191	M/s. Apex Packers Private Limited
340.	008194	M/s. Associated Graphics Private Limited
341.	008216	M/s. Chaitanya Hire Purchase Private Limited
342.	008207	M/s. Oriental Agro Private Limited
343.	008252	M/s. Universal Hire Purchase Private Limited
344.	008254	M/s. Redsun Auto Enterprises Private Limited
345.	008255	M/s. World's Worth Leasing and Holdings Private Limited
346.	008256	M/s. Wheel S World Auto Private Limited
347.	008258	M/s. Manor Agencies Private Limited
348.	008268	M/s. Shalimar Foods Private Limited
349.	008276	M/s. Janaraksha Leasing and Hire Purchase Private Limited
350.	008283	M/s. Jasbudh Finance Private Limited
351.	008279	M/s. Pama Agencies Private Limited

1	2	3
352.	008280	M/s. J A G G S Finance and Leasing Private Limited
353.	008477	M/s. Apple Computers Private Limited
354.	008286	M/s. G D B Engineers Private Limited
355.	008288	M/s. Decora Fabrics Private Limited
356.	008296	M/s. M R Impex Overseas Private Limited
357.	008300	M/s. Chevron Forgings Private Limited
358.	008318	M/s. DIY Tools and Castings Private Limited
359.	008321	M/s. Anupam Electro Chem Private Limited
360.	008322	M/s. Crownstar Developers Private Limited
361.	008325	M/s. Shri Mangalam Rice and General Mills Private Limited
362.	008326	M/s. Dalip Finance Private Limited
363.	008327	M/s. Shankar Dass Lok Raj Oil Mills Private Limited
364.	008328	M/s. Jindal Investment Co. Private Limited
365.	008320	M/s. Jeet Hire Purchase Private Limited
366.	008334	M/s. Shakti Hire Purchase Private Limited
367.	008342	M/s. Khangura Estate Private Limited
368.	008344	M/s. Vimoni Investment Limited
369.	008348	M/s. Onkar Leasing and Hire Purchase Private Limited
370.	008359	M/s. Deep Woolen Mills Private Limited
371.	008354	M/s. Ethicomb Pharmaceuticals Private Limited
372.	008357	M/s. S Electrovision Private Limited
373.	008358	M/s. Sahil Investments and Chits Private Limited
374.	008362	M/s. Swaran Deposits and Leasing Private Limited
375.	008364	M/s. Jassi Steels Private Limited
376.	008367	M/s. Bhupindera Hire Purchase Private Limited
377.	008368	M/s. Arindera Steels Private Limited
378.	008372	M/s. Harman Investment and Deposits Limited
379.	008389	M/s. Aarti Investment and Hire Purchase Private Limited
380.	008386	M/s. Tandy Data Engineers Private Limited
381.	008396	M/s. Deep Agro Private Limited
382.	008411	M/s. Gee Gee Finance and Investment Private Limited

1	2	3	1	2	3
383.	008413	M/s. Jalandhar Leasing Private Limited	415.	008606	M/s. Mohan Tent Service Private Limited
384.	008419	M/s. Crony Chem Plast Private Limited	416.	008613	M/s. Mamta Cargo and Travels Private Limited
385.	008423	M/s. Avneet Rubber India Private Limited	417.	008615	M/s. H. S. P. Housing and Hire Purchase Limited
386.	008424	M/s. Adharsheela Investments Limited	418.	008619	M/s. Machete Finance and Investment Co. Private Limited
387.	008414	M/s. New Life Forests (India) Limited	419.	008636	M/s. Linity Finance and Investment India Limited
388.	008429	M/s. Kohli Hire Purchase Private Limited	420.	008637	M/s. Kalra Investment Co. Private Limited
389.	008434	M/s. Jupiter Investments Private Limited	421.	008639	M/s. Ranbir Hire Purchase Private Limited
390.	008435	M/s. N. R. Marketing Private Limited	422.	008638	M/s. Classpro Remedies Private Limited
391.	008441	M/s. Ranbaxy Employees Welfare Limited	423.	008640	M/s. Natt Investment and Finance India Limited
392.	008443	M/s. Atrantica Investments Private Limited	424.	008646	M/s. Synthetic Trading Company Private Limited
393.	008474	M/s. R. K. Edibles Private Limited	425.	008651	M/s. Mohanmeet Builders and Investors Private Limited
394.	008482	M/s. Mazboot Packers and Engineers Private Limited	426.	008656	M/s. Tarannum Chemicals India Private Limited
395.	008484	M/s. Rational Forests Limited	427.	008670	M/s. Kashmir Deposits and Advances Private Limited
396.	008492	M/s. E. R. Finance and Investment Private Limited	428.	008677	M/s. Elora Holdings Private Limited
397.	008497	M/s. Model Hire Purchase Private Limited	429.	008682	M/s. Aradhna Casting Private Limited
398.	008509	M/s. Everest Carriers Private Limited	430.	008694	M/s. Simroop Leasings and Finance Company Private Limited
399.	008513	M/s. B. S. Hire Purchase Private Limited	431.	008698	M/s. Angel Deposits and Housing Development Private Limited
400.	008515	M/s. S. L. F. Builders Private Limited	432.	008699	M/s. Paradise Forests Development India Limited
401.	008514	M/s. Mari Gold Garments Private Limited	433.	008700	M/s. Nirbhai Financiers Private Limited
402.	008520	M/s. Khara Investment and Hire Purchase Private Limited	434.	008704	M/s. Shakti Synthetics Private Limited
403.	008517	M/s. Amber Deposits Private Limited	435.	008702	M/s. V. M. Hire Purchase Private Limited
404.	008519	M/s. Rakesh Kumar Gupta Contractors Private Limited	436.	008706	M/s. D. H. L. Finance and Investment India Limited
405.	008533	M/s. Jalandhar Investments Private Limited	437.	008711	M/s. Jai Veer Deposits and Advances Private Limited
406.	008543	M/s. Esos Finance and Investment Company (India) Limited	438.	008720	M/s. Chandigarh Leasing Private Limited
407.	008544	M/s. Shri Ganesh Hire Purchase Private Limited	439.	008726	M/s. Kapurthala Deposits and Advances Private Limited
408.	008561	M/s. Embassy Appliances Private Limited	440.	008727	M/s. B. D. Cement Distributors Private Limited
409.	008565	M/s. Jashan Finance and Investment India Limited	441.	008728	M/s. Chundhari Cotton and Allied Mills Private Limited
410.	008592	M/s. Pandher Farms Private Limited			
411.	008598	M/s. Rajni Steel Tubes Private Limited			
412.	008599	M/s. Paradise Hire Purchase Private Limited			
413.	008608	M/s. Sandhu Hire Purchase Private Limited			
414.	008604	M/s. Oracle Communication Private Limited			

1	2	3
442.	008729	M/s. Punchhi Leasing and Finance Company Private Limited
443.	008734	M/s. Northern Transformers and Power Controls Private Limited
444.	008744	M/s. Kaura Kosmopak Engineers Private Limited
445.	008747	M/s. Orient Tech Industries Private Limited
446.	008748	M/s. Divine Sales Private Limited
447.	008746	M/s. Sood Hatcheries and Poultry Products Private Limited
448.	008758	M/s. Manroop Tourism Private Limited
449.	008763	M/s. T. S. Motor and General Finance Private Limited
450.	008765	M/s. Harvinder Media Private Limited
451.	008757	M/s. Jammu Hotels Private Limited
452.	008764	M/s. Ludhiana Chemtech Private Limited
453.	008771	M/s. Classic Dealers and Advances Private Limited
454.	008772	M/s. Decent Dealers and Advances Private Limited
455.	008773	M/s. Haryana Dealers and Advances Private Limited
456.	008778	M/s. Bhai Steel Enterprises Private Limited
457.	008780	M/s. H. L. S. Deposits and Advances India Limited
458.	008787	M/s. Sanraw Transmissions Private Limited
459.	008788	M/s. New Light Hire Purchase Private Limited
460.	008789	M/s. Durga Deposits and Advances Leasing Limited
461.	008797	M/s. Brar Leasing Private Limited
462.	008798	M/s. H. P. L. Chemicals Limited
463.	008799	M/s. Keylock Safety Divices Private Limited
464.	008816	M/s. Chandi Containers Private Limited
465.	008821	M/s. Standard Hire Purchase Private Limited
466.	008830	M/s. G. S. Carriers Private Limited
467.	008827	M/s. Sukhna Finance Private Limited
468.	008848	M/s. Charan Kanwal Hire Purchase Private Limited

1	2	3
469.	008853	M/s. Baba Deep Singh Leasing and Agency Company Private Limited
470.	008860	M/s. Goindwal Deposits & Advances Limited
471.	008862	M/s. Khazana Advances and Hire Purchase Finance Limited
472.	008863	M/s. Dhanveer Hire Purchase Private Limited
473.	008869	M/s. K. T. Finance and Investment India Limited
474.	008871	M/s. Jagat Credit and Auto Financiers Private Limited
475.	008884	M/s. Abu Metal Products Private Limited
476.	008878	M/s. Juneja Insurance Solutions Private Limited
477.	008879	M/s. M. M. Packaging Limited
478.	008894	M/s. Chest Overseas Private Limited
479.	008902	M/s. Banka General Finance and Investment Limited
480.	008903	M/s. Chahal Woollen Mills Private Limited
481.	008906	M/s. Dhiman Cycles Private Limited
482.	008926	M/s. Globe Leasing and Small Financiers Private Limited
483.	008933	M/s. Saamy Finance Private Limited
484.	008937	M/s. Saini Subhlabh Laxmi & Finance Private Limited
485.	008938	M/s. Orient Deposits & Advances India Limited
486.	008943	M/s. Baroda Finance and Investment India Limited
487.	008957	M/s. Wariyam Hire Purchase Finance Company Private Limited
488.	008959	M/s. Camaline Pharmaceuticals Private Limited
489.	008972	M/s. Mohan Impex Private Limited
490.	008970	M/s. Hightide Finance and Leasing Private Limited
491.	008976	M/s. Chandi Engineers Private Limited
492.	008981	M/s. Dayal Ice Factory Private Limited
493.	008983	M/s. Bham Finance Company Private Limited
494.	008986	M/s. K. R. Commercials Private Limited
495.	008990	M/s. G. S. Hire Purchase Private Limited

1	2	3	1	2	3
496.	008993	M/s. Shiv Shanker Engineering Company Private Limited	527.	009117	M/s. K.S. Dua Alloys Private Limited
497.	008996	M/s. Green India Dairies Private Limited	528.	009118	M/s. Lion Woollen Mills Private Limited
498.	009003	M/s. Bains Hire Purchase Private Limited	529.	009122	M/s. Aarcee Traders Private Limited
499.	009009	M/s. Peacock Transport Company Private Limited	530.	009128	M/s. Rajdhani Hire Purchase Private Limited
500.	009018	M/s. Harjee Hire Purchase Private Limited	531.	009134	M/s. Gurpartap Housing Leasing and Finance Private Limited
501.	009030	M/s. Evershine Hire Purchase Private Limited	532.	009137	M/s. Citizen Advances and Deposits (India) Limited
502.	009032	M/s. M. P. Hire Purchase Private Limited	533.	009141	M/s. Paul Deposits and Advances Private Limited
503.	009038	M/s. Debcee Hotels Private Limited	534.	009148	M/s. S.N. Hotels and Resorts Private Limited
504.	009041	M/s. Majitha Finance and Investment India Limited	535.	009149	M/s. Bath Hire Purchase and Leasing Private Limited
505.	009045	M/s. India Deposits and Properties Development Limited	536.	009150	M/s. Amritsar Deposits and Advances Private Limited
506.	009049	M/s. Rightway Agro Forests India Limited	537.	009158	M/s. Dhaliwal Hire Purchase Private Limited
507.	009050	M/s. Megacorp International Private Limited	538.	009163	M/s. Kiran Hire Purchase Private Limited
508.	009053	M/s. Gagan Hire Purchase Private Limited	539.	009172	M/s. Ujagar Hire Purchase Finance Private Limited
509.	009059	M/s. R.B. Eucalyptus Private Limited	540.	009182	M/s. Kumar Deposits and Advances Private Limited
510.	009054	M/s. Shivalik Rangers Private Limited	541.	009183	M/s. Arora Hire Purchase Private Limited
511.	009055	M/s. Complete Overseas Private Limited	542.	009189	M/s. Vijay Laxmi Deposits and Advances India Limited
512.	009062	M/s. Pakiza Deposits and Investment Private Limited	543.	009190	M/s. Punjab Holdings and Advances Private Limited
513.	009063	M/s. Banka Hire Purchase Limited	544.	009195	M/s. Janta Deposits and Economical Development India Limited
514.	009061	M/s. Reeni Investments Private Limited	545.	009196	M/s. Jitson Pulp and Board Mills Private Limited
515.	009067	M/s. Evergreen Land and Financiers Private Limited	546.	009199	M/s. Grewal Motor Advances Private Limited
516.	009069	M/s. Deep Traders and Advances Private Limited	547.	009198	M/s. Red Rose Hire Purchase Private Limited
517.	009064	M/s. Sanpa Farms Private Limited	548.	009203	M/s. Satnam Hire Purchase Private Limited
518.	009066	M/s. Perfect Real Estates Private Limited	549.	009207	M/s. ATL Sales Private Limited
519.	009082	M/s. Nagi Spinning Private Limited	550.	009220	M/s. Nanaknam Chardikala Transport Private Limited
520.	009086	M/s. Gobind Leasing Private Limited	551.	009223	M/s. Mundra Packs and Containers Private Limited
521.	009090	M/s. P.J. Hire Purchase Private Limited	552.	009234	M/s. R.K. Mobiles Private Limited
522.	009084	M/s. G.S. Deposits Private Limited			
523.	009091	M/s. Beas Chemicals Private Limited			
524.	009099	M/s. Shiv-Om Farms and Forests Private Limited			
525.	009104	M/s. Balsons Advances Private Limited			
526.	009116	M/s. Pritam Auto Advances Private Limited			

1	2	3
553.	009235	M/s. Kamlesh Financiers Private Limited
554.	009236	M/s. Three Star Trading and Leasing Company Private Limited
555.	009238	M/s. Jay Ess Hire Purchase Private Limited
556.	009245	M/s. Chaturbhuj Hire Purchase Private Limited
557.	009257	M/s. Cee Dee Impex Private Limited
558.	009259	M/s. Golden Temple Deposits and Investment Company Private Limited
559.	009260	M/s. IVY Systems Limited
560.	009266	M/s. Bhalla Financial Consultants Private Limited
561.	009270	M/s. Anshal Credits Private Limited
562.	009273	M/s. TKB Consortium Televisions Private Limited
563.	009279	M/s. J.P. Hire Purchase Private Limited
564.	009276	M/s. Aay Bee Investment and Leasing Private Limited
565.	009286	M/s. Raikot Hire Purchase Private Limited
566.	009291	M/s. Terrain Builders Private Limited
567.	009310	M/s. Perfect Formulation Private Limited
568.	009313	M/s. G.M. Deposit and Advances Private Limited
569.	009314	M/s. Asahi Components Limited
570.	009371	M/s. Siri Keshgarh Sahib Hire Purchase Private Limited
571.	009323	M/s. P.S. Deposits and Advance Limited
572.	009331	M/s. Aru Deposits and Investments Private Limited
573.	009341	M/s. Bhagya Laxmi Deposits and Advances Private Limited
574.	009345	M/s. Eversun Laboratories Private Limited
575.	009349	M/s. Bee Ess Pee Constructions Private Limited
576.	009350	M/s. Jagdambay Leasing Private Limited
577.	009351	M/s. Bhagya Lakshmi Credit and Commercial Development Limited
578.	009365	M/s. Punjab Green Plantation Limited
579.	009364	M/s. Sandeep Hire Purchase Private Limited
580.	009367	M/s. Govind Iron Mills Private Limited
581.	009373	M/s. Kitty Deposits Private Limited
582.	009374	M/s. Sri Harkishan Hire Purchase Private Limited

1	2	3
583.	009389	M/s. S.G. Deposit and Advances Private Limited
584.	009387	M/s. Punjab Alloys Private Limited
585.	009392	M/s. Nagma Leasing Private Limited
586.	009396	M/s. Ajit Hire Purchase Private Limited
587.	009404	M/s. Lyalpur Hire Purchase Private Limited
588.	009414	M/s. Sukhraj Chit Fund Limited
589.	009416	M/s. P.S.I. Hire Purchase Private Limited
590.	009417	M/s. Ekta Deposits and Advances Private Limited
591.	009418	M/s. Manjyot Leasing and Finance Company Private Limited
592.	009421	M/s. Badri Plastic Private Limited
593.	009425	M/s. Evershine Leasing Private Limited
594.	009426	M/s. N.P. Industries Limited
595.	009427	M/s. Ess Pee Knitwears Private Limited
596.	009431	M/s. G.T. Hire Purchase Private Limited
597.	009423	M/s. Himmat General Finance Private Limited
598.	009437	M/s. Uttam Agro-Mills Private Limited
599.	009452	M/s. Vijay Jeevanasha Deposits and Advances Private Limited
600.	009447	M/s. Greenway General Hire Purchase Limited
601.	009457	M/s. Sardar Deposits and Investments India Limited
602.	009460	M/s. G.P. Deposits and Advances Private Limited
603.	009474	M/s. Bhupindra Hinges Private Limited
604.	009481	M/s. Crystal Machines Private Limited
605.	009485	M/s. Sogo Finance and Investment Private Limited
606.	009496	M/s. Rudhru Finance Company Private Limited
607.	009507	M/s. Lakhani Deposits and Advances Private Limited
608.	009509	M/s. Shiva Credits Private Limited
609.	009508	M/s. Jairth Woollen Mills Private Limited
610.	009510	M/s. Sangrur Textiles Limited
611.	009512	M/s. S.R. Advances Private Limited

1	2	3	1	2	3
612.	009519	M/s. Jawanda Hire Purchase and Leasing Private Limited	641.	009652	M/s. Pine View Hire Purchase Private Limited
613.	009522	M/s. Brardshaw Finance and Investments Private Limited	642.	009654	M/s. J. P. T. Leasing and Finance Private Limited
614.	009525	M/s. Makhu Finance and Investment India Limited	643.	009656	M/s. Palson Dehydrating Company Private Limited
615.	009532	M/s. Jawahar Deposits and Advances Limited	644.	009660	M/s. Monporte Impex Private Limited
616.	009546	M/s. Sanjh Hire Purchase and Finance Private Limited	645.	009661	M/s. Simran Hire Purchase and Leasing Private Limited
617.	009544	M/s. Al-Shah Exports Private Limited	646.	009662	M/s. Standard Forest Limited
618.	009552	M/s. Sahil Electronics Private Limited	647.	009667	M/s. Harpun Innovations Private Limited
619.	009561	M/s. Kirpal Chemicals Private Limited	648.	009672	M/s. Olympic Leathers Private Limited
620.	009562	M/s. Paras Deposits and Advances (India) Limited	649.	009677	M/s. J. Sons Leather Overseas Private Limited
621.	009563	M/s. Akal Leasing Private Limited	650.	009680	M/s. Vishwas Deposits and Advances Private Limited
622.	009566	M/s. Rahon Finance and Investment Private Limited	651.	009683	M/s. A. M. Financiers Private Limited
623.	009568	M/s. B.K. Credits Private Limited	652.	009684	M/s. S. G. Poultries Private Limited
624.	009585	M/s. Guram Finance Private Limited	653.	009736	M/s. Dharti Deposits and Advances Limited
625.	009590	M/s. Vinayaka Overseas Private Limited	654.	009692	M/s. Jagsons Builders and Contractors Private Limited
626.	009586	M/s. Liable Trio Finance Company Private Limited	655.	009693	M/s. Sangam Builders and Contractors Private Limited
627.	009587	M/s. Punjab Technofab Private Limited	656.	009702	M/s. Kant's Deposits and Investments Private Limited
628.	009597	M/s. Niti Traders Private Limited	657.	009708	M/s. Hitesh Spinning and Weaving Mills Private Limited
629.	009599	M/s. Ex-Servicemen Industrial Security and Consultancy Services Private Limited	658.	009709	M/s. Jagan Hire Purchase and Investment Limited
630.	009603	M/s. Jeet Leasing Private Limited	659.	009712	M/s. Precise Surveys Private Limited
631.	009610	M/s. Aman Advances India Limited	660.	009718	M/s. Efficient Deposits and Advances India Limited
632.	009615	M/s. Liberty Credits India Limited	661.	009720	M/s. Harshan Leasing and Finance Private Limited
633.	009618	M/s. Zimp Investments Private Limited	662.	009722	M/s. Wishav Deposits and Advances Private Limited
634.	009619	M/s. Beas Deposits and Advance Limited	663.	009724	M/s. Multani Hire Purchase Company Private Limited
635.	009620	M/s. United India Advances Limited	664.	009727	M/s. Satluj Advances and Deposits Limited
636.	009630	M/s. Gak Deposits and Advances India Limited	665.	009732	M/s. Lucky Forest Company Limited
637.	009634	M/s. Sunrise Fabrics Private Limited			
638.	009638	M/s. Grover Verma Deposits and Advances Limited			
639.	009640	M/s. Vajra Hire Purchase Private Limited			
640.	009649	M/s. International Green Forests Limited			

1	2	3
666.	009731	M/s. Hindustan Boards Limited
667.	009429	M/s. M. S. Parasol Systems Private Limited
668.	009735	M/s. Gurukirpa Agro Fuels Private Limited
669.	009744	M/s. Preet Marketers Private Limited
670.	009749	M/s. Sachdeva Hire Purchase Private Limited
671.	009752	M/s. Tarn Taran Finance and Investment (India) Limited
672.	009753	M/s. Majha Deposits and Advances India Limited
673.	009754	M/s. Topaz Finance Private Limited
674.	009764	M/s. Sohal Deposits and Advances Private Limited
675.	009766	M/s. Spur Resorts Private Limited
676.	009773	M/s. Rehmat Finance India Limited
677.	009774	M/s. Jay Dee Deposits and Advances Private Limited
678.	009778	M/s. A. R. Finance Private Limited
679.	009779	M/s. Sukhmani Leasing Private Limited
680.	009782	M/s. Atlas Clothing Company Private Limited
681.	009784	M/s. H. H. Hatchries Private Limited
682.	009788	M/s. H. M. J. Beas Papers Private Limited
683.	009801	M/s. Shan-Na Punjab Deposits and Advances Private Limited
684.	009805	M/s. Gilco Leasing India Private Limited
685.	009806	M/s. Namdev Fertilizers Private Limited
686.	009811	M/s. Northern India Housing Limited
687.	009820	M/s. Zeal Finance Private Limited
688.	009828	M/s. Narula Hire Purchase Private Limited
689.	009830	M/s. G. S. Sahni Deposits and Finance Private Limited
690.	009831	M/s. Vikas Deposits and Advances (India) Limited
691.	0099833	M/s. World Leasing Limited
692.	009834	M/s. Paniar Finance and Investment India Limited
693.	009849	M/s. Parkash Deposits and Advances Company Limited

1	2	3
694.	009854	M/s. Simran Finance Company Private Limited
695.	009858	M/s. Leader Metals and Alloys Private Limited
696.	009863	M/s. A. J. Sales Private Limited
697.	009866	M/s. Three Star Deposits and Advances India Limited
698.	009868	M/s. Moon Land Deposits and Advances Private Limited
699.	009869	M/s. Glorious Deposits and Advances Limited
700.	009871	M/s. Sandhu Leasing Private Limited
701.	009874	M/s. Sara Deposits and Advances Private Limited
702.	009875	M/s. Sindh Deposits and Advances India Limited
703.	009893	M/s. Stellar Sales Private Limited
704.	009892	M/s. Everest Foam Private Limited
705.	009898	M/s. Honeywell Overseas Private Limited
706.	009903	M/s. Indo Fine Fillers Private Limited
707.	009906	M/s. Jalandhar Foods Private Limited
708.	009918	M/s. Ratia Deposits and Advances Company Private Limited
709.	009922	M/s. Harjeshwar Hire Purchase Private Limited
710.	009923	M/s. Banka Estates India Limited
711.	009932	M/s. Varren Financial Services Private Limited
712.	009935	M/s. Udham Hire Purchase Private Limited
713.	009942	M/s. Dhankosh Deposits Private Limited
714.	009960	M/s. Dharti Hire Purchase and Leasing Company Limited
715.	009961	M/s. Alpi Finance Limited
716.	009964	M/s. S. R. Castings Private Limited
717.	009965	M/s. Green Land Deposits and Advances Limited
718.	009967	M/s. Ess Arr Nylons Private Limited
719.	009957	M/s. Nagoke Finance and Investment (India) Limited
720.	009971	M/s. Mithla Forest India Limited

1	2	3
721.	009969	M/s. UB-Punjab Distilleries Limited
722.	009977	M/s. Jarait Advances and Deposits Limited
723.	009972	M/s. Marigold Motor Advances India Limited
724.	009976	M/s. Sarbat Finance and Leasing Company Private Limited
725.	009979	M/s. Sutlej Hire Purchase Private Limited
726.	009983	M/s. Bhullar Finance and Investment India Limited
727.	009985	M/s. Ajanala Finance and Investment India Limited
728.	009987	M/s. Surekha Traders Private Limited
729.	009988	M/s. SMT Leasing Company Limited
730.	009994	M/s. Murari Textiles Machineries Private Limited
731.	009996	M/s. Patriot Finance and Agro India Limited
732.	010002	M/s. Sarromani Investment Leasing Housing Private Limited
733.	010008	M/s. Pepsu Agro Private Limited
734.	010009	M/s. Lakhian Foods Private Limited
735.	010025	M/s. Modern Deposits and Builders Company Limited
736.	010026	M/s. Sultan Wind Hire Purchase and Leasing Private Limited
737.	010028	M/s. Naunihal Forgings Private Limited
738.	010029	M/s. Paul Tanneries Private Limited
739.	010032	M/s. Muktisar Deposits and Advances Private Limited
740.	010038	M/s. Jatt Finance and Investment India Limited
741.	010040	M/s. Bharaj Finance Private Limited
742.	010041	M/s. Malwa Chits Private Limited
743.	010035	M/s. Amrit Health Associates Private Limited
744.	010044	M/s. Rajeshwari Deposits and Advances Private Limited
745.	010047	M/s. Rozgar Finance India Limited

RAJ SINGH
Registrar of Companies
Punjab, H. P. and Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Patna, the 28th December 2011

No. RoC/PAT/560/(3)/7713—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the names of the following Companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	Regn. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	011007	M/s. Lord Budha Marketing Private Limited
2.	011008	M/s. Paramount Success Point Marketing Private Limited
3.	010995	M/s. Hera Homes Private Limited
4.	010985	M/s. Nimbus Services and Marketing Private Limited
5.	010986	M/s. Tripos Pharma Private Limited
6.	010982	M/s. Leela Educational Centre Private Limited
7.	010977	M/s. Arunimay Construction Private Limited
8.	010970	M/s. Agahara Construction Private Limited
9.	010968	M/s. Hussain and Company Construction Private Limited
10.	010943	M/s. Srimax Pharma Private Limited
11.	010944	M/s. Dawn Softoversky Private Limited
12.	010938	M/s. Devdoot Construction Private Limited
13.	010935	M/s. Ankit and Arpit Bhardwaj Communication Private Limited
14.	010930	M/s. Radix Remedies Private Limited
15.	010926	M/s. Kaushal Genext Technology Private Limited
16.	010927	M/s. Sky Overseas Private Limited
17.	010916	M/s. Jehan Marketing Private Limited
18.	010917	M/s. Manas Informatics Private Limited
19.	010909	M/s. Eastern Pharmaceutical India Private Limited
20.	010910	M/s. Endure Laboratories Private Limited
21.	010902	M/s. Chitanv Construction Private Limited

1	2	3
22.	010892	M/s. Rudra Medichem Private Limited
23.	010891	M/s. Pluto Pharma Private Limited
24.	010882	M/s. Chandan Deo Cold Storage Private Limited
25.	010883	M/s. Vishwa Mohini Construction Private Limited
26.	010884	M/s. Rajesh Kumar Surveyors Private Limited
27.	010881	M/s. Bodhgaya Impex Private Limited
28.	010873	M/s. Laxman Leela and Sons Oils and Impex Private Limited
29.	010874	M/s. Jai Maa Bhubneshwari Iron (India) Private Limited
30.	010865	M/s. Jayshri Medilabs Private Limited
31.	010864	M/s. Shree Laxmipati Steel Private Limited
32.	010854	M/s. Axiom Plus Services and Marketing Private Limited
33.	010850	M/s. Harsh Jewellers Private Limited
34.	010845	M/s. Sreejan Frozen Products Private Limited
35.	010846	M/s. Om Jairam Enterprises Private Limited
36.	010840	M/s. Surender Kumar Singh Construction Private Limited
37.	010836	M/s. Phoenix Infoways Private Limited
38.	010833	M/s. Tanya Marketing Private Limited
39.	010828	M/s. Rajesh Pramod Computers Private Limited
40.	010829	M/s. Trigauri Sugar Mill Private Limited
41.	010830	M/s. Neha Cold Storage Private Limited
42.	010819	M/s. Relax Marketing Private Limited
43.	010815	M/s. Om Ideal Life Marketing Private Limited
44.	010806	M/s. Udyan Education Private Limited
45.	010799	M/s. Shiv Shakti Iron and Steel Private Limited
46.	010791	M/s. Sirjan Sales and Marketing Private Limited
47.	010785	M/s. Kanahiya Shyam Logistics Private Limited
48.	010740	M/s. Ilaco Pharmaceuticals Private Limited

1	2	3
49.	010770	M/s. Repose Marketing and Services Private Limited
50.	010765	M/s. Gurukul Ayurved Private Limited
51.	010750	M/s. Sheel Mala Construction and Builders Private Limited
52.	010748	M/s. Abhudaya Bultech Private Limited
53.	010746	M/s. Alwi Builders and Developers Private Limited
54.	010743	M/s. Sagar Engineering and Housing Construction Private Limited
55.	010741	M/s. Pulse Vision Private Limited
56.	010728	M/s. Albatross Laboratories Private Limited
57.	010721	M/s. Guru Mahesh Baba Constructions Private Limited

O. P. SHARMA
Dy. Registrar of Companies
Bihar

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Patna, the 29th December 2011

No. RoC/PAT/560/(3)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the names of the following Companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	Regn. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	007636	M/s. Best Plantation Limited
2.	007629	M/s. Barl India Aqua & Teakfarms Limited
3.	007618	M/s. Lloycee Finance Company Limited
4.	007611	M/s. Progressive Railway Construction Limited
5.	007608	M/s. Nagar Vikas Economy Limited
6.	007604	M/s. Apurv Plantation Limited
7.	007598	M/s. Avtar Gogaji Company of Finance Limited
8.	007600	M/s. Maa Ambe Savings Investment Limited

1	2	3
9.	007590	M/s. Classic India Ecoinvest Limited
10.	007586	M/s. Joseph Credit & Commercial Company India Limited
11.	007572	M/s. Winner Trading (India) Limited
12.	007573	M/s. Eden Economy India Limited
13.	007566	M/s. Shubham Plantations India Limited
14.	007559	M/s. Kashyap Enterprises Limited
15.	007553	M/s. Dhanadheep Finvest India Limited
16.	007550	M/s. Shrikrishna Films Finance & Hire Purchase Company Limited
17.	007541	M/s. Sakhi Savings Limited
18.	007539	M/s. Natraj Savings Limited
19.	007533	M/s. Sawan Pharmaceutical India Limited
20.	007532	M/s. Alite Plantations Limited
21.	007507	M/s. Motto Kautil Finance & Plantations Limited
22.	007477	M/s. Ghoswer India Trading Company Limited
23.	007454	M/s. Barl India Forest & Fishries Limited
24.	007455	M/s. Rastogi Plantations Limited
25.	007446	M/s. Sangam Plantation & Developers Limited
26.	007425	M/s. Lok Seva Commercial and Plantation India Limited
27.	007426	M/s. Prachi Economic & Plantation India Limited
28.	007420	M/s. Horizon Plantations (India) Limited
29.	007395	M/s. Sonex Savings & Investment India Limited
30.	007392	M/s. Boss Card India Limited

O. P. SHARMA
Dy. Registrar of Companies
Bihar

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Patna, the 19th January 2012

No. RoC/PAT/560/(3)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following Companies unless

cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	Regn. No.	Name of the Company
1.	005595	M/s. Janta Security & Job Services Private Limited
2.	005589	M/s. Zam Zam Agro Private Limited
3.	005575	M/s. Sharma Glass Industries Private Limited
4.	005552	M/s. Bimla Electro Steel Industries Private Limited
5.	005548	M/s. Sinha Homes Private Limited
6.	005532	M/s. Mukesh Massina Beej Private Limited
7.	005523	M/s. Splendid Developers Private Limited
8.	005525	M/s. Goodman Polymers Private Limited
9.	005495	M/s. Colonna Marketing Private Limited
10.	005484	M/s. Punam Impex (India) Private Limited
11.	005486	M/s. Nandini Technocom India Private Limited
12.	005481	M/s. Sathi Land Developers Private Limited
13.	005480	M/s. Tirupati Foods (India) Private Limited
14.	005476	M/s. Kaimur Housing Private Limited
15.	00547	M/s. Quanta Industrial Consultancy Private Limited

O. P. SHARMA
Dy. Registrar of Companies
Bihar

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Maxi Resorts Private Limited

Panaji-403001, the 18th January 2012

No. 560(3) MCA/RoC-Goa/sec 560/2012/00012/1737—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Maxi Resorts Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SANJAY KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Melvyn and Susan Holiday Homes Private Limited

Panaji-403001, the 18th January 2012

No. 560(3) MCA/RoC-Goa/sec 560/2012/00030/1740—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of
three months from the date hereof the name of M/s. Melvyn
and Susan Holiday Homes Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

SANJAY KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Lemuria Health and Fitness Private Limited

Panaji-403001, the 18th January 2012

No. 560(3) MCA/RoC-Goa/sec 560/2012/00018/1743—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of
three months from the date hereof the name of M/s. Lemuria
Health and Fitness Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

SANJAY KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Don Paulito Hotels Private Limited

Panaji-403001, the 17th January 2012

No. 560(3) MCA/RoC-Goa/sec 560/2012/00404/1746—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of
three months from the date hereof the name of M/s. Don
Paulito Hotels Private Limited unless cause is shown to the
contrary, will be struck off the register and the said company
will be dissolved.

SANJAY KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. John Guest House Private Limited

Panaji-403001, the 18th January 2012

No. 560(3) MCA/RoC-Goa/sec 560/2012/00021/1749—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of
three months from the date hereof the name of M/s. John
Guest House Private Limited unless cause is shown to the

contrary, will be struck off the register and the said company
will be dissolved.

SANJAY KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ayoni Realtors Private Limited

Panaji-403001, the 18th January 2012

No. 560(3) MCA/RoC-Goa/sec 560/2012/00026/1752—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of
three months from the date hereof the name of M/s. Ayoni
Realtors Private Limited unless cause is shown to the
contrary, will be struck off the register and the said company
will be dissolved.

SANJAY KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Daves Holiday Homes Private Limited

Panaji-403001, the 18th January 2012

No. 560(3) MCA/RoC-Goa/sec 560/2012/00015/1755—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of
three months from the date hereof the name of M/s. Daves
Holiday Homes Private Limited unless cause is shown to
the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

SANJAY KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Chase Real Estate Developers Private Limited

Panaji-403001, the 18th January 2012

No. 560(5)/1758—Notice is hereby given pursuant to
sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956
that the name of M/s. Chase Real Estate Developers Private
Limited has this day been struck off the register and the
said company is dissolved.

SANJAY KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956
and of the following Companies

Bangalore, the 18th January 2012

No. ROCB/MCA-21/TA-MM/560(3)/2011—Notice is hereby given to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date the names of the following Companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1.	38948	M/s. Sierra Design Automation Private Limited
2.	47363	M/s. Sameera Trading Company Private Limited
3.	46143	M/s. Euromarket Consult Services (India) Private Limited

K. GEETHA MAHALAKSHMI
Asstt. Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956
and of the following Companies

Bangalore, the 18th January 2012

No. ROCB/MCA-21/TA-MM/560(5)/2011—Notice is hereby given to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the above Companies have this day been struck off from the register of the registrar of Companies and the said companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	42884	M/s. Yellowwire Architecture Consulting Private Limited
2.	48743	M/s. Keane (Bangalore Sez) Private Limited
3.	39670	M/s. Innodes Solutions Private Limited
4.	19470	M/s. Jala Communications Private Limited
5.	12356	M/s. Unichannels Constructions Private Limited
6.	51811	M/s. Glover Daniels Research Solutions Private Limited
7.	51039	M/s. Parigna Technologies Private Limited

1	2	3
8.	48858	M/s. Emberin Women's Empowerment Solutions Private Limited
9.	40170	M/s. Sand Profiles India Private Limited
10.	40504	M/s. Map Technology Services Private Limited
11.	52940	M/s. Helius Photovoltaics Private Limited
12.	45884	M/s. Bio-Gen Coastal Ingredients Private Limited
13.	8236	M/s. Akva Investments Private Limited
14.	33958	M/s. Esbee Planners and Designers Private Limited
15.	42923	M/s. Carinov Networks Private Limited
16.	46774	M/s. ASV Villas and Projects Private Limited
17.	47352	M/s. Musicindiaonline. Com Private Limited
18.	47271	M/s. Veera Hydro Ventures Private Limited
19.	21075	M/s. The Ayer Manis Investment and Trading Limited
20.	14231	M/s. Davana Software Private Limited
21.	51694	M/s. Excelab Technology and Systems Private Limited

K. GEETHA MAHALAKSHMI
Asstt. Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Camdon Advisory Services Private Limited

Chennai-600034, the 5th January 2012

No. 46208/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Camdon Advisory Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.
Dy. Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Aparna LPG Bottlers Private Limited

Chennai-600034, the 5th January 2012

No. 46238/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aparna LPG Bottlers Private

Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.
Dy. Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Gananathan Hotel Private Limited

Chennai-600034, the 5th January 2012

No. 46272/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gananathan Hotel Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.
Dy. Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Ritnik Trading Private Limited

Chennai-600034, the 5th January 2012

No. 46333/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ritnik Trading Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.
Dy. Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Srirag Investments Private Limited

Chennai-600034, the 5th January 2012

No. 46343/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Srirag Investments Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.
Dy. Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Ess Solutions Private Limited

Chennai-600034, the 5th January 2012

No. 46353/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ess Solutions Private Limited

has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.
Dy. Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Getme Info Private Limited

Chennai-600034, the 5th January 2012

No. 46397/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Getme Info Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.
Dy. Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Insight Corporate Services Private Limited

Chennai-600034, the 5th January 2012

No. 46407/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Insight Corporate Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.
Dy. Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Unique Compusoft Private Limited

Chennai-600034, the 5th January 2012

No. 46411/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Unique Compusoft Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.
Dy. Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Mahaveer Shakthi Power Private Limited

Chennai-600034, the 5th January 2012

No. 46431/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 that the name of M/s. Mahaveer Shakthi Power Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.
Dy. Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Vel Paper Pack Private Limited

Chennai-600034, the 5th January 2012

No. 46443/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vel Paper Pack Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.
Dy. Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Instcomp Data Solutions Private Limited

Chennai-600034, the 5th January 2012

No. 46446/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Instcomp Data Solutions Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.
Dy. Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Vriksha Exim Private Limited

Chennai-600034, the 5th January 2012

No. 46537/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vriksha Exim Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.
Dy. Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Amazing Garments Private Limited

Chennai-600034, the 5th January 2012

No. 46539/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 that the name of M/s. Amazing Garments Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.
Dy. Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. DPJ Infotech Private Limited

Chennai-600034, the 5th January 2012

No. 46606/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. DPJ Infotech Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.
Dy. Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Malola Software Private Limited

Chennai-600034, the 5th January 2012

No. 46726/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Malola Software Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.
Dy. Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. CTI Technologies Private Limited

Chennai-600034, the 5th January 2012

No. 46822/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. CTI Technologies Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.
Dy. Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Friendship Scripts Private Limited

Chennai-600034, the 5th January 2012

No. 46827/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 that the name of M/s. Friendship Scripts Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.

Dy. Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Lakshminarayana Associates Private Limited

Chennai-600034, the 6th January 2012

No. 46000/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Lakshminarayana Associates Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.

Dy. Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Radhika Cine Services Private Limited

Chennai-600034, the 6th January 2012

No. 46015/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Radhika Cine Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.

Dy. Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Yourbabysname Dot com Private Limited

Chennai-600034, the 6th January 2012

No. 46028/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Yourbabysname Dot Com Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.

Dy. Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Triedge Business Solutions Private Limited

Chennai-600034, the 6th January 2012

No. 46073/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Triedge Business Solutions Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.

Dy. Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Arunachala Foods Private Limited

Chennai-600034, the 6th January 2012

No. 46093/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Arunachala Foods Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.

Dy. Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Aadhisakthi Securitas Private Limited

Chennai-600034, the 6th January 2012

No. 46147/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aadhisakthi Securitas Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.

Dy. Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Scindu Scientific Private Limited

Chennai-600034, the 6th January 2012

No. 46197/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Scindu Scientific Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.

Dy. Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Mangalakshmi Travels Private Limited

Chennai-600034, the 6th January 2012

No. 46199/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mangalakshmi Travels Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.

Dy. Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. S.P.K. Chits Private Limited

Chennai-600034, the 6th January 2012

No. 46205/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. S.P.K. Chits Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.
Dy. Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Norida Publications Private Limited

Chennai-600034, the 6th January 2012

No. 46211/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Norida Publications Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.
Dy. Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Aneraj Constructions Private Limited

Chennai-600034, the 6th January 2012

No. 46214/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aneraj Constructions Private

Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.
Dy. Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Mehta Smelters Private Limited

Chennai-600034, the 6th January 2012

No. 46268/560(5)/MSS/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mehta Smelters Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.
Dy. Registrar of Companies
Tamil Nadu, Chennai, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. South East Finance Co. Limited

Chennai-600034, the 6th January 2012

No. 560(3)MCA/RoC-Chennai/sec 560/2012/00027—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. South East Finance Co. Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said Company will be dissolved.

LATHA PARIMALAVADANA K.
Dy. Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands